



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 16—सितम्बर 22, 2006 (भाद्रपद 25, 1928)
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER. 16—SEPTEMBER 22, 2006 (BHADRA 25, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 2006

सं. 445, दिनांक 17 अगस्त, 2006.--इस मंत्रालय की 4 अप्रैल, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (ए जी एम यू : 88) के अधिकारी श्री चेतन बी. संघी को 4 अप्रैल, 2006 (पूर्वाह्न) से रक्षा राज्य मंत्री के निजी सचिव के पद पर कार्य करते रहने तक 15,100-400-18,300/- रुपए के वेतनमान में निदेशक स्तर पर रक्षा राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू) के निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना छोड़ देने की स्थिति में वे केन्द्र में वैकल्पिक तैनाती के हकदार हैं। यदि वे एक बार मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना छोड़ देते हैं तो वैकल्पिक तैनाती के लिए कार्यकाल की गणना के प्रयोजन से उनका कुल केन्द्रीय कार्यकाल 4 वर्ष 6 माह और 6 दिन होगा। मंत्री के निजी सचिव के रूप में उनके केन्द्रीय कार्यकाल की गणना 4 अप्रैल, 2006 से की जाएगी।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के गृह मंत्रालय के तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री डालचंद को 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में 31.7.2006(अपरा.) से

31.12.2006 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अधधीन रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं :--

(i) तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा; और

(ii) तदर्थ आधार पर यह व्यवस्था जब तक जारी रहेगी जब तक कि वरिष्ठता कोट और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार उपलब्ध न हो जाए। यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति इन दो श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उन नियमित अनुभाग अधिकारियों को आर्बिट्रट अपने-अपने संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तदर्थ आधार पर कार्यरत अनुभाग अधिकारियों को सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के गृह मंत्रालय के तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री ओम प्रकाश यादव को

6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में 26.7.2006(पूर्वाह) से 31.12.2006 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं : --

(i) तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा; और

(ii) तदर्थ आधार पर यह व्यवस्था जब तक जारी रहेगी जब तक कि वरिष्ठता कोटा और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार उपलब्ध न हो जाए। यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति इन दो श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उन नियमित अनुभाग अधिकारियों को आबंटित अपने-अपने संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तदर्थ आधार पर कार्यरत अनुभाग अधिकारियों को सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की नियमित सहायक श्रीमती ज्योत्सना गुप्ता (इस समय तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी पद पर कार्यरत) का नाम वर्ष 2002 की अनुभाग अधिकारी ग्रेड (परीक्षा कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने पर उन्हें 05 जुलाई, 2006 (पूर्वाह) से अगले आदेश जारी होने तक 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर इसी मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह अधिसूचना इस मंत्रालय की 18 जुलाई, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करती है।

राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित सहायक (तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न) श्री एस.के. सिंह का नाम वर्ष 2003 की अनुभाग अधिकारी ग्रेड (वरिष्ठता कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने पर उन्हें 26 जुलाई, 2006 (पूर्वाह) से अगले आदेश जारी होने तक 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित सहायक श्री जे. हरि प्रसाद का नाम वर्ष 2003 की अनुभाग अधिकारी ग्रेड (वरिष्ठता कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने पर उन्हें 19 जुलाई, 2006 (अपराह) से अगले आदेश जारी होने तक 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित सहायक (तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न) श्री वेणुकुट्टन नायर पी. का नाम वर्ष 2003 की अनुभाग अधिकारी ग्रेड (वरिष्ठता कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने पर उन्हें 29 जुलाई, 2006 (पूर्वाह) से अगले आदेश जारी होने तक 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में इसी मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. सरस्वती, उप सचिव

वैमानिक गुणता आशवासन महानिदेशालय

सं. 446, दिनांक 22 अगस्त, 2006.--राष्ट्रपति महोदय, वै. गु. आ. मनि., रक्षा मंत्रालय, में निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं--

1. श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी 29 जून, 2006(पूर्वाह) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए कार्यालय, मु.नि.नि., वै.गु.आ. मनि., रक्षा मंत्रालय विमानपुरा, पोस्ट बॉक्स सं. 1782, बैंगलोर--17, में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

2. श्री कमल किशोर दामोदर बजाज 12 जून 2006(पूर्वाह) से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के लिए मु.नि.नि. के कार्यालय, वै.गु.आ. मनि., रक्षा मंत्रालय, द्वारा एच ए एल, नासिक डिवीजन, ओझर-422207 में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

वी सेतुमाधवन, अवर सचिव

सं. 447, दिनांक 18 अगस्त, 2006.-- राष्ट्रपति, अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 जुलाई 2006 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं: --

अवैतनिक थल सेना एडीसी- (इ. म. इ.)

आई. सी-17280 ले. जनरल वीरचंद जैन, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे. वि.से.मे. (इ. म. इ.)

एस. डी. बांगा, अवर सचिव

एकीकृत मुख्यालय : (नौसेना)

सं. 448, दिनांक 21 अगस्त, 2006--राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1822/डी ई एस/भाग-4/03 दिनांक 08 अप्रैल 2003 के अधीन भारतीय नौसेना की अभियांत्रिक/वैद्युत शाखा में सीधी भर्ती योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं :--

सब-ले. के रैंक में परखाधीन सीधी भर्ती योजना

नाम (निजी संख्या), कमीशन की किस्म एवं कमीशन की तिथि

अभियांत्रिक शाखा

सब ले. गवी कुमार (42289के), अस्थायी, 07 जनवरी 2002

सब ले. विश्वास विश्वनाथ (42295जेड), अस्थायी, 07 जनवरी 2002

सब ले. अनुप रंजन (42300के), अस्थायी, 07 जनवरी 2002

सब ले. महेन्द्र मधुकर काकडे (42302आर), अस्थायी, 07 जनवरी 2002

सब ले. विकास वर्मा (42305वाई), अस्थायी, 07 जनवरी 2002
 सब ले. अभिजीत सुधाकर गांजरे (42306जेड), अस्थायी, 07 जनवरी 2002
 सब ले. अरुण प्रह्लाद देशपाण्डे (42308बी), अस्थायी, 07 जनवरी 2002
 सब ले. संदीप जोशी (42310एच), अस्थायी, 07 जनवरी 2002
 सब ले. सिद्दीलिगेश्वर चन्द्रशेखर नलवी (42312एन), अस्थायी, 07 जनवरी 2002
 सब ले. राहुल दलाल (42315डब्ल्यू), अस्थायी, 07 जनवरी 2002

वैद्युत शाखा

सब ले. दीपक तोमर (51839आर), अस्थायी, 07 जनवरी 2002
 सब ले. श्रीराम मराठे (51842वाई), अस्थायी, 07 जनवरी 2002
 सब ले. रवि रंजन सिंह (51845बी), अस्थायी, 07 जनवरी 2002
 सब ले. गुरप्रीत सिंह (51848के), अस्थायी, 07 जनवरी 2002
 सब ले. मानव गांधी (51852डब्ल्यू), अस्थायी, 07 जनवरी 2002
 सब ले. एन उमानाथ अरूणाचलम् (51853वाई), अस्थायी, 07 जनवरी 2002

राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1822/डी ई एस/271/यू एस (पी)/डी (एन-II) दिनांक 24 फरवरी 2003 के अधीन भारतीय नौसेना की अभियांत्रिक शाखा में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं :-

सब-ले. के रैंक में परखाधीन सीधी भर्ती योजना

नाम (निजी संख्या), कमीशन की किस्म एवं कमीशन की तिथि
 नबीरा अमित गोविन्दलाल (42231बी), अस्थायी, 2 जुलाई 2001
 ग्रेवाल बीरेन्द्रपाल सिंह (42234के), अस्थायी, 2 जुलाई 2001
 नीलकुण्ड सुधेन्द्र जी (42236आर), अस्थायी, 2 जुलाई 2001
 विजय सक्सेना (42243एफ), अस्थायी, 2 जुलाई 2001

राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1822/डी ई एस/अनु-IV/03 दिनांक 12 मई 2006 के अधीन भारतीय नौसेना की अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा), अभियांत्रिक शाखा (नौसेना पोत शिल्प कैंडर), वैद्युत शाखा (सामान्य सेवा) एवं वैद्युत शाखा (पनडुब्बी कैंडर) में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं :-

सब-ले. के रैंक में परखाधीन

नाम (निजी संख्या), कमीशन की किस्म एवं कमीशन की तिथि
 अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा)
 संगामेश (42318ए), अस्थायी, 12 अगस्त 2002

संजय रघुवंशी (42320एफ), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 अमित सूद (42321एच), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 सैमुअल संदीप रपाका (42322के), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 आनन्द उरिति (42324आर), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 अकरम इलियास खान (42325टी), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 के सुभाष (42326डब्ल्यू), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 एम गणेश (42327वाई), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 निलेश देवीदास जोष (42328जैड), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 तुषार गोपालराव जोष (42329ए), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 रवि एस (42332एच), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 किरण आर काकेरी (42333के), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 अनुप पी कुरियन (42334एन), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 जी शशिकिरण (42335आर), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 संजु जे (42337डब्ल्यू), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 सी आर महेन्द्रन (42338वाई), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 प्रवीण गोपालकृष्णन् (42339जैड), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 ए सहाणे चारूदत्ता (42340ए), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 नितीन मेहता (42341बी), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 विराज करूणाकर (42342एफ), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 टी के अब्राहम (42343एच), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 प्रदीप कुमार सिंह (42344के), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 अजय सिंह (42345एन), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 डी के कार्तिक (42347टी), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 अनुप चेरियन (42348डब्ल्यू), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 वर्गीस लिंकन (42349वाई), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 अरुण कुमार (42350जैड), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 के बी किशन (42351ए), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 विजिलेश थ्यात (42352बी), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 निखिल श्रीकांत देशमुख (42353एफ), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 आर एम रंजीत (42354एच), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 प्रसन्ना मधु (42355के), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 गिरीश राव जाधव डी (42356एन), अस्थायी, 14 अगस्त 2002
 के पी सबरेशा (42357आर), अस्थायी, 17 अगस्त 2002
 राजा रंजन राजेन्द्रन (42358टी), अस्थायी, 17 अगस्त 2002

एस प्रकाश (42359डब्ल्यू), अस्थायी, 17 अगस्त 2002
 एन एन सुभाष (42361जैड), अस्थायी, 22 अगस्त 2002
 आर नागराज (42362ए), अस्थायी, 23 अगस्त 2002
 अरुण शशिधरन (42363बी), अस्थायी, 23 अगस्त 2002
 अभियांत्रिक शाखा (नौसेना पोत शिल्प कैंडर)
 मुक्कानिकल जोए पॉल (42319बी), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 वरुण महाजन (42323एन), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 अजित सिंह यादव (42330बी), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 अमित डोगरा (42331एफ), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 ऋचा वर्मा (42336टी), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 पवन कुमार (42346आर), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 सर्वेश पाई (42360वाई), अस्थायी, 22 अगस्त 2002
 वैद्युत शाखा (सामान्य सेवा)
 मनीष सुगीव दुधमोचन (51856बी), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 सुजीत कुमार (51857एफ), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 सुब्रतो कुमार मंडल (51858एच), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 के कुमारस्वामी (51859के), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 मयंक जैन (51860एन), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 संकेत मित्रा (51861आर), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 सचिन प्रहलाद धरमाले (51862टी), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 गिरीश विजय पाटिल (51863डब्ल्यू), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 अंड्रेय चार्ल्स डेनिस (51864वाई), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 अथर खान (51865जैड), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 के एस अनीष (51866ए), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 राहुल ग्रोवर (51867बी), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 इविन साम अरपुता सिंह जे (51868एफ), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 राजनीश शर्मा (51869एच), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 मनीष कुमार यादव (51870के), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 एन अनिल कुमार (51871एन), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 प्रभात कुमार सिन्हा (51873टी), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 रोमियो शर्मा (51874डब्ल्यू), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 जे राजेश (51875वाई), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 प्रदीप कुशवाहा (51876जैड), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 सुरज मुक्कातिरा (51877ए), अस्थायी, 12 अगस्त 2002

कश्मीर विलियम (51878बी), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 राहुल बागुल गंगाधर (51879एफ), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 विजेश वालसन (51880एच), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 महेश मुखेदकर (51881के), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 अमिया कुमार पत्रा (51882एन), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 सुधीर सिंह (51883आर), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 राज कुमार चतुर्वेदी (51884टी), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 त्रिषी वर्मा (51885डब्ल्यू), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 वी ज्योति प्रकाश (51886वाई), अस्थायी, 12 अगस्त 2002
 सहाय जौन सी के जे नादार (51887जैड), अस्थायी, 13 अगस्त 2002
 अरुण वर्गीस (51888ए), अस्थायी, 14 अगस्त 2002
 वैद्युत शाखा (पनडुब्बी कैंडर)
 वीरा प्रदीप कुमार मुरामल्ला (51872आर), अस्थायी, 12 अगस्त 2002

राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या ओ एफ/1407 दिनांक 15 जुलाई 2003 के अधीन भारतीय नौसेना की शिक्षा शाखा के में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं :--

सब-ले. के रैंक में परखाधीन

सीधी भर्ती योजना-लॉ कैंडर

नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म एवं कमीशन की तिथि

सब ले. ऋषिकेश पंचोली (70471के), स्थायी, 07 जनवरी 2002

राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या ओ एफ/1506/एन एच क्यू/1768/यू एस (पी)/डी (एन-II) दिनांक 12 दिसम्बर 2002 एवं ओ एफ/1506/एन एच क्यू/डी ई एस/भाग-1 दिनांक 06 अगस्त 2003 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा के अंतर्गत लॉ कैंडर में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं :--

सब-ले. के रैंक में परखाधीन

सीधी भर्ती योजना-लॉ कैंडर

नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म एवं कमीशन की तिथि

सब ले. सत्यप्रिय (05188आर), अस्थायी, 02 जुलाई 2001

सब ले. नीतिन रॉय (05307के), स्थायी, 07 जनवरी 2002

सब ले. वरुण सिंह (05308एन), स्थायी, 14 जनवरी 2002

सब ले. ए वेंकट प्रसाद (05309आर), स्थायी, 16 जनवरी 2002

वी एस स्लाथिया
 कमांडर
 जे डी एम पी आर
 (आर एंड आर)

सं. 449, दिनांक 17 अगस्त, 2006--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित निजी सचिवों की नियुक्ति उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि तक अथवा नियमित प्रधान निजी सचिवों के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर और आगे बढ़ाते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	से	तक
1.	श्री एम. शशिधरन	01.07.2006	31.12.2006
2.	श्री जी. वी. सिंह	01.07.2006	31.12.2006
3.	श्री ए. एस. भरारा	01.07.2006	31.12.2006
4.	श्री बी. सी. मेहता	01.07.2006	31.12.2006
5.	श्री सुरेश कुमार	01.07.2006	31.12.2006

वी. सरस्वती
उप सचिव

सं. 450, दिनांक 17 अगस्त, 2006--रक्षा मंत्रालय के सैन्य क्रय संगठन में मुख्य क्रय निदेशक (प्रतिनियुक्ति पर) ब्रिगेडियर पी. एस. गिल (आई एस-30375एन) की सेवाएं 25 जुलाई, 2005 के अपराह्न से रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय को सौंपी जाती हैं।

वी. सरस्वती
उप सचिव

सेना शाखा

सं. 451, दिनांक 18 अगस्त, 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख दी गई तिथि से करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मूल मेजर के रैंक में

- कप्तान राकेश शर्मा (वी-549एन), आरवीसी, 16 दिसम्बर 2004
 कप्तान मोहम्मद महबूब-उर-रहमान (वी-550एच), आरवीसी, 16 दिसम्बर 2004
 कप्तान विनीत बुटोला (वी-551एल), आरवीसी, 16 दिसम्बर 2004
 कप्तान एस जे प्रेम कुमार ई (वी-552एन), आरवीसी, 11 दिसम्बर 2005
 कप्तान नीरज गुप्ता (वी-553वाई), आरवीसी, 16 दिसम्बर 2004
 कप्तान मानव देशवाल (वी-554वाई), आरवीसी, 16 दिसम्बर 2004
 कप्तान भूपेंद्र विशनोई (वी-555एफ), आरवीसी, 16 दिसम्बर 2004

- कप्तान एम एम महुसूदन (वी-556के), आरवीसी, 11 दिसम्बर 2005
 कप्तान निशान्त राना (वी-557एम), आरवीसी, 11 दिसम्बर 2005
 कप्तान अनूप आर (वी-558पी), आरवीसी, 11 दिसम्बर 2005
 कप्तान संजय जाधव (वी-559एक्स), आरवीसी, 11 दिसम्बर 2005
 कप्तान मनोज कुमार दास (वी-560एम), आरवीसी, 10 मार्च 2005
 कप्तान विजय महतो (वी-561पी), आरवीसी, 10 मार्च 2005

नियमित सेना

तोपखाना रेजिमेन्ट

सबस्टैंटिव सूबेदार (जी डी) के पद में

- नायब सूबेदार छबीला सिंह यादव (जेसी-264797पी), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार थॉमसन ओ एम (जेसी-264869एन), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार वेद सिंह (जेसी-264870एच), 09 मई 2005/01 अप्रैल 2005 *
 नायब सूबेदार मनोहरन ए बी (जेसी-264787एल), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार कुरनदास सत्यनारायन (जेसी-264993पी), 12 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005 *
 नायब सूबेदार राम किसन (जेसी-264879एक्स), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार भावनेश्वर सिंह (जेसी-265194एल), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार करम सिंह चौहान (जेसी-265638के), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-264931पी), 18 मई 2005/01 अप्रैल 2005 *
 नायब सूबेदार संपूर्ण सिंह (जेसी-265066एन), 20 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005 *
 नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह (जेसी-265362वाई), 17 मई 2005/01 अप्रैल 2005 *
 नायब सूबेदार सत्यपाल सिंह (जेसी-265083एन), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार लाल सिंह (जेसी-265167पी), 27 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005 *
 नायब सूबेदार निहाल सिंह (जेसी-265641के), 10 मई 2005/01 अप्रैल 2005 *
 नायब सूबेदार आज्ञाद सिंह (जेसी-265036डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार अनिल कुमार पनवार (जेसी-265414के), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-265280डब्ल्यू), 13 मई 2005/01 अप्रैल 2005 *
 नायब सूबेदार बिठल लंगाटड (जेसी-265469एन), 01 अप्रैल 2005

- नायब सूबेदार राज सिंह (जेसी-265716डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005
- नायब सूबेदार बसन्त कुमार द्विवेदी (जेसी-265900एफ), 14 मई 2005/01 अप्रैल 2005 *
- नायब सूबेदार टेक चन्द (जेसी-265925एन), 03 मई 2005/01 अप्रैल 2005 *
- नायब सूबेदार कमलेश कुमार (जेसी-265875एन), 27 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005 *
- नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह (जेसी-265929के), 01 अप्रैल 2005
- नायब सूबेदार गुरुदत्त सिंह (जेसी-266046एम), 14 मई 2005/01 अप्रैल 2005 *
- नायब सूबेदार सतीश कुमार पाण्डेय (जेसी-266304एफ), 01 अप्रैल 2005
- नायब सूबेदार किशन कुमार यादव (जेसी-266212पी), 09 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005 *
- नायब सूबेदार जसवन्त सिंह (जेसी-263643डब्ल्यू), 01 मई 2005
- नायब सूबेदार एन कृष्णन (जेसी-263824एफ), 02 जून 2005/01 मई 2005 *
- नायब सूबेदार उगले सुर्यभान मारुती (जेसी-263874एम), 13 मई 2005/01 मई 2005 *
- नायब सूबेदार वी रामानाथन (जेसी-264251पी), 06 मई 2005/01 मई 2005 *
- नायब सूबेदार मनसुख गोरखनाथ सिताराम (जेसी-264819एच), 08 जून 2005/01 मई 2005 *
- नायब सूबेदार हीरा लाल (जेसी-264740ए), 16 जून 2005/01 मई 2005 *
- नायब सूबेदार अतवार सिंह (जेसी-265741पी), 12 मई 2005/01 मई 2005 *
- नायब सूबेदार जोधा सिंह (जेसी-264956एफ), 12 मई 2005/01 मई 2005 *
- नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह (जेसी-265168के), 04 मई 2005/01 मई 2005 *
- नायब सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-264732एफ), 16 मई 2005/01 मई 2005 *
- नायब सूबेदार भुवन चन्द्र मुरारी (जेसी-262924ए), 02 जून 2005/11 मई 2005 *
- नायब सूबेदार रघुनाथ यादव (जेसी-264919एन), 06 जून 2005/11 मई 2005 *
- नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-262485ए), 07 जून 2005/11 मई 2005 *
- नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-261718के), 04 सितम्बर 2004/24 अगस्त 2004 *
- नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-266545एफ), 28 फरवरी 2005
- नायब सूबेदार कालिका प्रसाद यादव (जेसी-266742के), 23 अप्रैल 2005/28 फरवरी 2005 *
- नायब सूबेदार रनजित कुमार (जेसी-262644एम), 01 मार्च 2005
- नायब सूबेदार राम कुमार (जेसी-263361एक्स), 11 मार्च 2005/01 मार्च 2005 *
- नायब सूबेदार विमल कुमार बी (जेसी-263713के), 09 मार्च 2005/01 मार्च 2005 *
- नायब सूबेदार साबले गौतम नारायण (जेसी-263053एक्स), 11 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005 *
- नायब सूबेदार सतेन्द्र सिंह (जेसी-263830पी), 01 मार्च 2005
- नायब सूबेदार रमेश चन्दर (जेसी-264021एफ), 13 मार्च 2005/01 मार्च 2005 *
- नायब सूबेदार भगत बालासाहेब हरि (जेसी-264481ए), 01 मार्च 2005
- नायब सूबेदार रनबीर सिंह (जेसी-264485वाई), 31 मार्च 2005/01 मार्च 2005 *
- नायब सूबेदार वेनु गोपालन आर (जेसी-264476एक्स), 20 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005 *
- नायब सूबेदार गुरुजीत सिंह (जेसी-264584एफ), 01 मार्च 2005
- नायब सूबेदार आर वाडीवेलू (जेसी-264995ए), 01 मार्च 2005
- नायब सूबेदार अजब सिंह (जेसी-265072एफ), 01 मार्च 2005
- नायब सूबेदार अजित सिंह (जेसी-265272एक्स), 21 मार्च 2005/01 मार्च 2005 *
- नायब सूबेदार प्रभू सिंह (जेसी-265607एल), 25 मार्च 2005/01 मार्च 2005 *
- नायब सूबेदार छञ्जू राम (जेसी-265356एल), 04 मार्च 2005/01 मार्च 2005 *
- नायब सूबेदार पंकराज वी (जेसी-266811पी), 09 मार्च 2005/01 मार्च 2005 *
- नायब सूबेदार नरसिंह कुमार नायक (जेसी-264672एक्स), 01 अप्रैल 2005/05 मार्च 2005 *
- नायब सूबेदार राम सिंह राजपूत (जेसी-264953एन), 05 अप्रैल 2005/09 मार्च 2005 *
- नायब सूबेदार बलराम पी (जेसी-265503डब्ल्यू), 28 मार्च 2005/14 मार्च 2005 *
- नायब सूबेदार राम रहीश (जेसी-261924एन), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार योगेन्द्र कुमार शुक्ला (जेसी-262598एच), 04 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-263114के), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार सी रामामूर्ती (जेसी-262824पी), 08 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार बिशन सिंह (जेसी-262629एक्स), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार मोतीलाल यादव (जेसी-262906एक्स), 26 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

नायब सूबेदार दिगे चन्द्रकान्त विठल (जेसी-262948के), 04 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

नायब सूबेदार एम नटराज रेड्डी (जेसी-263368एफ), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार रतन सिंह (जेसी-263849एन), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार बीर सिंह (जेसी-263850एच), 06 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

नायब सूबेदार मेवा सिंह (जेसी-263896एल), 03 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

नायब सूबेदार अरून कुमार घोष (जेसी-263997वाई), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-264119पी), 14 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

नायब सूबेदार अशोक सिंह राजपूत (जेसी-264515एल), 05 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-264188एल), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार दिनेश चन्द (जेसी-264499वाई), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार साठे वसन्त अन्तू (जेसी-264763एफ), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-264339वाई), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार बिशन सिंह (जेसी-264234पी), 20 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

नायब सूबेदार सोहन लाल (जेसी-264428एक्स), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-264684एम), 02 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

नायब सूबेदार चक्कान दिलीप रामराव (जेसी-262658एम), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार अभय सिंह (जेसी-265728एल), 02 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार पी रंगा सामी (जेसी-265692एक्स), 28 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार सुख चैन सिंह (जेसी-265487डब्ल्यू), 14 अप्रैल 2005/01 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार भगवती प्रसाद (जेसी-265787एक्स), 01 अप्रैल 2005/01 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार वीर सिंह (जेसी-265489 एफ), 01 मार्च 2005/01 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार राज कुमार सिंह (जेसी-266008डब्ल्यू), 14 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-265592एम), 27 अप्रैल 2005/01 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार एस वृंलासे करन (जेसी-265833एफ), 29 अप्रैल 2005/01 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार राम नवमी (जेसी-265699एफ), 19 मार्च 2005/01 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-265906एच), 23 मार्च 2005/01 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार ए एस जोहर (जेसी-265979पी), 03 मार्च 2005/01 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार रामेबर सिंह मलिक (जेसी-266173एफ), 10 अप्रैल 2005/01 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार धीरज सिंह दहीमा (जेसी-266650एक्स), 24 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार बी सुब्रामन्यम (जेसी-266288पी), 07 मार्च 2005/01 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-265554डब्ल्यू), 02 मार्च 2005/02 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार उमेद सिंह सिसोदिया (जेसी-265286एक्स), 07 मार्च 2005/03 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-266079एफ), 21 अप्रैल 2005/04 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार सुखलाल (जेसी-266206पी), 21 अप्रैल 2005/04 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार सरदार खान (जेसी-264183एम), 28 फरवरी 2005/11 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार बलवन्त सिंह (जेसी-266289एक्स), 12 मार्च 2005/12 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार उन्नी कृष्णन पिल्लै के (जेसी-264337एन), 29 मार्च 2005/16 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार राजपती दुबे (जेसी-264767एक्स), 25 मार्च 2005/17 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार बादलग राम यादव (जेसी-266387एक्स), 30 मार्च 2005/20 फरवरी 2005 *

नायब सूबेदार किरपाल सिंह यादव (जेसी-266611वाई), 30 मार्च 2005/21 फरवरी 2005 *

नायब सूबेदार अत्तर सिंह (जेसी-265926डब्ल्यू), 13 अप्रैल 2005/21 फरवरी 2005 *

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-266532के), 15 अप्रैल 2005/21 फरवरी 2005 *

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-265871एक्स), 02 अप्रैल 2005/21 फरवरी 2005 *

नायब सूबेदार सुब्रामन्यम एस (जेसी-266265एन), 13 अप्रैल 2005/21 फरवरी 2005 *

नायब सूबेदार दिप चन्द (जेसी-265063ए), 02 अप्रैल 2005/22 फरवरी 2005 *

नायब सूबेदार हरजीत सिंह (जेसी-265827एन), 18 अप्रैल 2005/22 फरवरी 2005 *

नायब सूबेदार एन राजेन्द्रन (जेसी-266014के), 09 अप्रैल 2005/22 फरवरी 2005 *

नायब सूबेदार जागर नाथ (जेसी-266783एन), 20 अप्रैल 2005/24 फरवरी 2005 *

नायब सूबेदार घन श्याम (जेसी-265930वाई), 26 अप्रैल 2005/25 फरवरी 2005 *

नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-265329एफ), 13 अप्रैल 2005/28 फरवरी 2005 *

नायब सूबेदार धीरेन्द्र सिंह (जेसी-266007एन), 23 अप्रैल 2005/27 फरवरी 2005 *

नायब सूबेदार नन्द लाल (जेसी-265631ए), 28 अप्रैल 2005/28 फरवरी 2005 *

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-265579एच), 01 अप्रैल 2005/28 फरवरी 2005 *

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-265879के), 09 अप्रैल 2005/28 फरवरी 2005 *

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार गुरदीप सिंह (सं. 14357941एफ अब जेसी-268992के), 03 फरवरी 2006/01 सितम्बर 2005 *

हवलदार शिव बचन सिंह (सं. 14366653डब्ल्यू अब जेसी-268993एम), 08 दिसम्बर 2005

हवलदार राज पाल (सं. 14480613पी अब जेसी-268994पी), 09 दिसम्बर 2005

हवलदार विजय गुरंग (सं. 14489348एल अब जेसी-268995एक्स), 10 जनवरी 2006/16 दिसम्बर 2005 *

हवलदार रावन सिंह (सं. 14347930एफ अब जेसी-268996ए), 20 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

हवलदार सुनील कुमार चतुर्वेदी (सं. 14398311डब्ल्यू अब जेसी-268997एच), 26 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

हवलदार अशोक कुमार (सं. 14475907वाई अब जेसी-268998एल), 16 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

आर एच एम अच्छेलाल (सं. 14477919एम अब जेसी-268999एन), 08 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार हिरालाल पटेल (सं. 14496228पी अब जेसी-269000पी), 27 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार विजयी सिंह यादवा (सं. 14400587एन अब जेसी-269001एक्स), 09 अप्रैल 2006/08 फरवरी 2006 *

हवलदार करम सिंह (सं. 14365404एल अब जेसी-269002ए), 20 मार्च 2006/13 फरवरी 2006 *

हवलदार रतन सिंह (सं. 14399803एफ अब जेसी-269003एच), 16 मार्च 2006/16 फरवरी 2006 *

हवलदार रामोतर (सं. 14486960के अब जेसी-269004एल), 01 मार्च 2006

हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 14362354ए अब जेसी-269005एन), 08 अप्रैल 2006/2 मार्च 2006 *

हवलदार रमेश चन्द्रा प्रधान (सं. 14499988एच अब जेसी-269006डब्ल्यू), 26 अप्रैल 2006/14 मार्च 2006 *

हवलदार रमेश चन्द (सं. 14368345पी अब जेसी-269007वाई), 27 अप्रैल 2006/29 मार्च 2006 *

हवलदार दिनानाथ यादव (सं. 14380647एन अब जेसी-269008एफ), 14 फरवरी 2006/31 अक्टूबर 2005 *

हवलदार बिरेन्द्र सिंह (सं. 14362461एफ अब जेसी-269009के), 02 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005 *

हवलदार विनोद कुमार पुथावत (सं. 8030863एन अब जेसी-269010वाई), 20 फरवरी 2006/19 नवम्बर 2005 *

हवलदार यतेन्द्रा कुमार (सं. 14481972पी अब जेसी-269011एफ), 10 मार्च 2006/30 नवम्बर 2005 *

आर एच एम इंगवाले रविन्द्रा यशवन्त (सं. 14365365एक्स अब जेसी-269012के), 25 मार्च 2006/01 जनवरी 2006 *

हवलदार सत्यबीर सिंह (सं. 14474972एम अब जेसी-269013एम), 08 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

हवलदार तिलक राज (सं. 14362268पी अब जेसी-269014पी), 15 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006 *

आर एच एम मोहन सिंह (सं. 14479232एफ अब जेसी-269015एक्स), 28 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

बी एच एम प्रकाश चन्द (सं. 14476334एम अब जेसी-269016ए),
08 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार नन्दन सिंह (सं. 14481196ए अब जेसी-269017एच), 01
अप्रैल 2006/02 फरवरी 2006*

हवलदार मुरत सिंह (सं. 14499206एफ अब जेसी-269018एल),
10 अप्रैल 2006/09 फरवरी 2006*

बी एच एम माने प्रकाश खाशाबा (सं. 14490387डब्ल्यू अब
जेसी-269019एन), 25 मार्च 2006/15 फरवरी 2006*

बी एच एम शिव बचन राम (सं. 14362824ए अब
जेसी-269020एच), 31 मार्च 2006/01 मार्च 2006*

बी एच एम नन्दन पी डी सिंह (सं. 14393002के अब
जेसी-269021एल), 14 मई 2006/29 मार्च 2006*

बी एच एम श्याम लाल सिंह (सं. 14489448डब्ल्यू अब
जेसी-269022एन), 01 अप्रैल 2006

बी एच एम सुरजीत (सं. 14484164एच अब जेसी-269023डब्ल्यू),
23 मई 2006/10 अप्रैल 2006*

हवलदार विरेन्द्र कुमार (सं. 14477496के अब जेसी-268958के),
02 दिसम्बर 2005/14 अगस्त 2005*

हवलदार विरेन्द्रा प्रसाद (सं. 14375219एल अब जेसी-268959एम),
10 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार राम वृक्ष यादव (सं. 14481402वाई अब जेसी-268960एफ),
11 फरवरी 2006/10 नवम्बर 2005*

हवलदार सुबे सिंह (सं. 14361619एम अब जेसी-268961के), 11
फरवरी 2006/11 दिसम्बर 2005*

बी एच एम भारत सिंह (सं. 14474412ए अब जेसी-268962एम),
19 मार्च 2006/28 जनवरी 2006*

बी एच एम गायकवाड़ राजाराम शिवाजी (सं. 14360763पी अब
जेसी-268963पी), 19 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

बी एच एम दिलीप ओझा (सं. 14369356एन अब जेसी-
268964एक्स), 23 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार कंचन सिंह (सं. 14367576वाई अब जेसी-268965ए), 29
अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006*

आर एच एम योदेश कुमार (सं. 14477908ए अब जेसी-268966एच),
04 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006*

बी एच एम परमानन्द (सं. 14477955एक्स अब जेसी-268967एल),
22 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार गलावे सुभाष शंकर (सं. 15109233के अब जेसी-
268967एन), 19 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार गुरदेव सिंह (सं. 14482248एक्स अब जेसी-268969डब्ल्यू),
31 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार मोसाफीर प्रसाद (सं. 14480947के अब जेसी-268970एल),
26 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार अमरजीत सिंह (सं. 14486577एल अब जेसी-268971एन),
03 अप्रैल 2006/20 फरवरी 2006*

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 14482250पी अब जेसी-268972डब्ल्यू),
20 मार्च 2006/01 मार्च 2006*

हवलदार बी सुरालीनाथन (सं. 14378410एक्स अब जेसी-
268973वाई), 03 मई 2006/15 मार्च 2006*

आर एच एम श्री समरजीत सिंह (सं. 14409612एच अब
जेसी-268983एच), 24 जनवरी 2006/31 दिसम्बर 2005*

आर एच एम परमपाल सिंह (सं. 15110738एम अब
जेसी-268984एल), 21 जनवरी 2006/31 दिसम्बर 2005*

आर एच एम प्रताप सिंह (सं. 14396711के अब जेसी-268985एन),
23 जनवरी 2006/31 दिसम्बर 2005*

आर एच एम मुकेश (सं. 15116401ए अब जेसी-268986डब्ल्यू),
20 फरवरी 2006/31 दिसम्बर 2005*

हवलदार करन सिंह (सं. 14480164एल अब जेसी-268987वाई),
13 अप्रैल 2006/15 फरवरी 2006*

हवलदार एस रामाकृष्णन (सं. 14488239एम अब
जेसी-268988एफ), 05 मई 2006/15 फरवरी 2006*

हवलदार दुर्गा प्रसाद (सं. 15104112वाई अब जेसी-268989के),
27 मार्च 2006/15 फरवरी 2006*

हवलदार प्रेम कुमार सिंह (सं. 15111476एन अब जेसी-268990वाई),
10 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006*

आर एच एम महेन्द्रा पाल सिंह (सं. 14483949ए अब
जेसी-268991एफ), 10 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006*

बी एच एम अरुन कुमार शुक्ला (सं. 14358431एम अब
जेसी-268910डब्ल्यू), 09 फरवरी 2006/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार एम कदरकराई (सं. 14393124एन अब जेसी-268911वाई),
01 अप्रैल 2006/01 नवम्बर 2005*

हवलदार बालकिशन यादव (सं. 14395058पी अब
जेसी-268912एफ), 07 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार किशन सिंह (सं. 14488691एफ अब जेसी-268913के),
29 जनवरी 2006/31 दिसम्बर 2005*

आर एच एम मारुती मलागी (सं. 14376191एच अब
जेसी-268914एम), 12 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार कमलेश्वर प्रसाद (सं. 14369452एच अब जेसी-
268915पी), 29 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

बी एच एम रवीन्द्र राम (सं. 14363859एच अब जेसी-268916एक्स),
23 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

आर एच एम कमल सिंह (सं. 14368941एफ अब जेसी-268917ए),
19 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार राजेश प्रसाद शुक्ला (सं. 14486649के अब जेसी-
268918एच), 18 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार रछपाल चन्द (सं. 14478587ए अब जेसी-268919एल),
16 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार दलीप चन्द (सं. 14485870डब्ल्यू अब जेसी-268920ए),
01 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार बी एच एम मानीक यशवन्त यादव (सं. 14363353के अब
जेसी-268921एच), 01 फरवरी 2006

आर एच एम हरजीत सिंह (सं. 14362814डब्ल्यू अब
जेसी-268922एल), 10 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार साधु थॉमस (सं. 14378214एक्स अब जेसी-268923एन),
13 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार सोमन ए (सं. 14378510एच अब जेसी-268924डब्ल्यू),
13 मार्च 2006/07 फरवरी 2006*

बी एच एम चिन्ना सामी (सं. 14379954वाई अब जेसी-268925वाई),
13 मार्च 2006/16 फरवरी 2006*

(*ज्येष्ठता प्राप्त)

तोपखाना अभिलेख

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के पद में:--

हवलदार/क्लर्क हीरामन सिंह (सं. 14362170एफ अब
जेसी-268769ए), 20 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क पीतम्बर राजखोबा (सं. 14480351के अब
जेसी-268712एल), 13 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क प्रेम नाथ सिंह (सं. 14480236के अब
जेसी-268770पी), 28 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क सत्यप्रकाश शर्मा (सं. 14483601एल अब
जेसी-268840एच), 25 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क रामपूजन सिंह (सं. 14482353एन अब
जेसी-268771एक्स), 01 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क अर्जुन सिंह राना (सं. 14359761एक्स अब
जेसी-268841एल), 30 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क मिन राज शर्मा (सं. 14362513एम अब
जेसी-268926एफ), 13 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क अरविंद दत्त (सं. 14371232एक्स अब
जेसी-268713एन), 13 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क राजेश्वर सिंह (सं. 14484630एम अब
जेसी-268772ए), 20 जनवरी 2006/01 जुलाई 2006*

हवलदार/क्लर्क धर्मवीर (सं. 14372144एन अब जेसी-268773एच),
22 जनवरी 2006/01 अगस्त 2005*

हवलदार/क्लर्क रामानुज तिवारी (सं. 14372213वाई अब
जेसी-268774एल), 20 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क करन सिंह (सं. 14372227वाई अब
जेसी-268775एन), 13 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क सुल्तान सिंह (सं. 14484924ए अब
जेसी-268776डब्ल्यू), 26 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क ईश्वर सिंह (सं. 14372361के अब
जेसी-268777वाई), 20 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क एच. पी. तिवारी (सं. 14485073एल अब
जेसी-268778एफ), 20 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क जनक राज (सं. 14372507एम अब
जेसी-268779के), 16 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क अशोक कुमार (सं. 14372508पी अब
जेसी-268927के), 25 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क सत्यवीर सिंह (सं. 14372525पी अब
जेसी-268842पी), 20 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क धान सिंह (सं. 14485286वाई अब
जेसी-268780वाई), 17 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क हेम सिंह (सं. 14485295ए अब
जेसी-268843डब्ल्यू), 25 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क सत्येन्द्र कुमार (सं. 14485319वाई अब
जेसी-268714डब्ल्यू), 13 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क समुदर सिंह (सं. 14485320एन अब
जेसी-268781एफ), 14 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क भागीरथ (सं. 14372587पी अब जेसी-268929पी),
25 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क रोशन लाल (सं. 14372588एक्स अब जेसी-
268782के), 01 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क छोटे लाल (सं. 14372617एफ अब
जेसी-268783एम), 23 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क बलवान सिंह (सं. 14372678वाई अब
जेसी-268844वाई), 29 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क प्रेम पाल (सं. 14373396एम अब
जेसी-268845एफ), 20 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क सुरेश प्रसाद शुक्ला (सं. 14373547ए अब
जेसी-268784एम), 21 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क रविन्द कुमार सिंह (सं. 14486107ए अब
जेसी-268715वाई), 13 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क हरि सिंह (सं. 14486156एच अब जेसी-268716एफ),
13 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क अनऊल हक मन्डल (सं. 14486287एम अब
जेसी-268785एक्स), 31 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क छोटा सिंह (सं. 14486379ए अब जेसी-268846के),
19 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क उपेन्द्र शर्मा (सं. 14486334ए अब जेसी-268786ए),
27 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क बलविन्द्र कुमार (सं. 14374634डब्ल्यू अब
जेसी-268787एच), 01 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क इन्द्र शोखर राय (सं. 14493887वाई अब
जेसी-268788एल), 24 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क उत्पाल गुहा ठाकुरता (सं. 8031188वाई अब
जेसी-268930के), 20 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार/क्लर्क नरेन्द्र कुमार महाराणा (सं. 15103637डब्ल्यू अब
जेसी-268789एम), 01 फरवरी 2006

हवलदार/क्लर्क मुकेश बाबू (सं. 14392662एल अब
जेसी-268847एम), 01 फरवरी 2006

हवलदार/क्लर्क दिलीप सिंह सिसोदिया (सं. 15109257एन अब
जेसी-268848पी), 01 फरवरी 2006

हवलदार/क्लर्क छोटे लाल (सं. 14372085एम अब
जेसी-268790एच), 01 फरवरी 2006

*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दी जायेगी)

सेना सेवा कोर (पशु परिवहन)

पक्के नायब रिसालदार के रैंक में (ए एस एच/ए टी)

दफादार एस जी रोय (सं. 6476426एन अब जेसी-680882पी),
12 मार्च 2006/10 दिसम्बर 2005*

दफादार नरायन सिंह (सं. 6472541डब्ल्यू अब जेसी-680883एक्स),
16 मार्च 2006/10 दिसम्बर 2005*

दफादार पी के नाथ (सं. 6472513के अब जेसी-680884ए),
17 फरवरी 2006/10 दिसम्बर 2005*

दफादार राम स्वरूप सिंह (सं. 6472535एच अब जेसी-680885एच),
13 दिसम्बर 2005/10 दिसम्बर 2005*

दफादार पी के यादव (सं. 6472552एच अब जेसी-680886एल),
14 मार्च 2006/10 दिसम्बर 2005*

दफादार जी एस राम (सं. 6472544एक्स अब जेसी-680887एन),
21 मार्च 2006/10 दिसम्बर 2005*

दफादार महेश लोहरा (सं. 6471674ए अब जेसी-680888डब्ल्यू),
16 मार्च 2006/10 दिसम्बर 2005*

दफादार सी क्रिशनन (सं. 6472545एम अब जेसी-680889वाई),
16 मार्च 2006/10 दिसम्बर 2006*

दफादार ओम प्रकाश (सं. 6472550के अब जेसी-680890एन),
29 मार्च 2006/10 दिसम्बर 2005*

दफादार सदत हुसैन (सं. 6472565ए अब जेसी-680891डब्ल्यू),
18 मार्च 2006/10 दिसम्बर 2005*

दफादार डी बी थापा (सं. 6472570एल अब जेसी-680892वाई),
17 मई 2006/10 दिसम्बर 2005*

दफादार अमर पाल (सं. 6471947एक्स अब जेसी-680893एफ),
17 मार्च 2006/10 दिसम्बर 2005*

दफादार महेंदर सिंह (सं. 6472629ए अब जेसी-680896पी),
21 मार्च 2006/01 जनवरी 2006*

दफादार आर बी राय (सं. 6472688एम अब जेसी-680898ए),
20 मार्च 2006/01 जनवरी 2006*

दफादार राम निवास (सं. 6472695एच अब जेसी-680899एच),
01 जनवरी 2006

दफादार मगर सिंह (सं. 3382274डब्ल्यू अब जेसी-680901पी),
20 मार्च 2006/01 जनवरी 2006*

दफादार सतवंत सिंह (सं. 3382285एच अब जेसी-680902एक्स),
11 मार्च 2006/01 जनवरी 2006*

दफादार जे एन सिंह (सं. 6472767पी अब जेसी-680903ए),
13 मार्च 2006/01 जनवरी 2006*

दफादार सुमेर सिंह (सं. 6472802एक्स अब जेसी-680905एल),
16 मार्च 2006/01 जनवरी 2006*

दफादार शीश राम (सं. 6472855वाई अब जेसी-6808906एन),
18 मार्च 2006/01 जनवरी 2006*

दफादार एस एन चौधरी (सं. 6472858एल अब जेसी-680907डब्ल्यू),
25 मई 2006/01 जनवरी 2006*

दफादार राज पाल (सं. 6472863डब्ल्यू अब जेसी-680908वाई),
01 जनवरी 2006

दफादार बाबू सिंह (सं. 6471799एक्स अब जेसी-680909एफ),
16 मार्च 2006/01 जनवरी 2006*

दफादार बिजेन्द्र पाल (सं. 6471959एम अब जेसी-680910डब्ल्यू),
01 जनवरी 2006

दफादार महेश कुमार (सं. 6472067एन अब जेसी-680913के),
11 मार्च 2006/02 जनवरी 2006*

दफादार श्री राम (सं. 6472177एच अब जेसी-680914एम),
15 मार्च 2006/21 जनवरी 2006*

दफादार बनवारी लाल (सं. 6472137एफ अब जेसी-680915पी),
31 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

दफादार तरुण रोय (सं. 6472709एक्स अब जेसी-680916एक्स),
01 फरवरी 2006

दफादार राम निवास (सं. 6472881वाई अब जेसी-680918एच),
13 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

पक्के नायब रिसालदार के रैंक में (ए टी)

दफादार युव राज (सं. 6482312वाई अब जेसी-680919एल),
01 फरवरी 2006

पक्के नायब रिसालदार के रैंक में (एस एच जी डी)

दफादार सुरेन्द्रन के (सं. 6376722के अब जेसी-680920ए),
13 मार्च 2006/21 जनवरी 2006 *

दफादार बिमल सिंह (सं. 63766221डब्ल्यू अब जेसी-680922एल),
31 मार्च 2006/21 जनवरी 2006 *

दफादार निरन्जन सिंह (सं. 64377913एल अब जेसी-680923एन),
30 मार्च 2006/21 जनवरी 2006 *

पक्के नायब रिसालदार के रैंक में (ए एस एच/ए टी)

दफादार रोशन अली मंडल (सं. 6472200एल अब
जेसी-680838एल), 18 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

दफादार घोवर राम (सं. 13889670पी अब जेसी-680839एन),
18 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

दफादार कुमार पाल (सं. 6472118डब्ल्यू अब जेसी-680840एच),
01 अक्टूबर 2005

दफादार एन के चौधरी (सं. 6472121डब्ल्यू अब जेसी-680841एल),
10 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

दफादार संजय प्रसाद (सं. 6482084एफ अब जेसी-680843डब्ल्यू),
16 अक्टूबर 2006/29 अक्टूबर 2005 *

दफादार सिब्बू के (सं. 6489623पी अब जेसी-680844वाई),
14 जून 2006/29 अक्टूबर 2005 *

दफादार अरुन कुमार रोय (सं. 6471868एच अब जेसी-680846के),
14 जनवरी 2006/29 अक्टूबर 2005 *

दफादार निगप्पा पाटिल (सं. 6471867ए अब जेसी-680879पी),
18 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

दफादार रमाकांत (सं. 6472185एफ अब जेसी-680854एच),
10 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005 *

दफादार बिरेंद्र सिंह (सं. 6472170वाई अब जेसी-680855एल),
10 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005 *

दफादार महेन्द्र सिंह (सं. 3380974एम अब जेसी-680856एन),
07 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2006 *

दफादार सीता राम (सं. 6472045पी अब जेसी-680857डब्ल्यू),
14 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005 *

दफादार दीवान सिंह (सं. 6472211एक्स अब जेसी-680851एफ),
17 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005 *

दफादार घुरहु राम (सं. 6472289एच अब जेसी-680860डब्ल्यू),
17 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005 *

दफादार एम डी सत्तार (सं. 4261793एम अब जेसी-680862एफ),
18 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

दफादार कोमल सिंह (सं. 6471939वाई अब जेसी-680863के),
20 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

दफादार श्री केस (सं. 6472214एल अब जेसी-680864एम),
18 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

दफादार अजीत बोरा गोहै (सं. 6472326एल अब जेसी-680868एच),
17 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

दफादार एम ए खान (सं. 6472346वाई अब जेसी-680869एल),
17 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

दफादार ब्रिजवेश चंदर (सं. 6375477ए अब जेसी-680870ए),
24 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005 *

दफादार जे आर शाकिया (सं. 6375554के अब जेसी-680871एच),
31 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005 *

दफादार नरेश प्रसाद (सं. 6376656एम अब जेसी-680873एन),
18 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

दफादार निहाल सिंह (सं. 6376672के अब जेसी-680874डब्ल्यू),
11 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005 *

दफादार जवाहर यादव (सं. 6376714एल अब जेसी-680875वाई),
25 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

दफादार राम निवास (सं. 6472490एन अब जेसी-680880के),
10 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

दफादार राज कुमार (सं. 6472389एन अब जेसी-680876एफ),
03 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

दफादार शिव पाल जैसवाल (सं. 6376650एल अब
जेसी-680872एल), 02 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

दफादार मान मठ रोय (सं. 6472306एक्स अब जेसी-680866एक्स),
01 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

दफादार वी के सिंह (सं. 13882046एन अब जेसी-680832के),
12 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

दफादार रामजी प्रसाद (सं. 6375552वाई अब जेसी-680833एम),
12 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

दफादार के बी थापा (सं. 6376547ए अब जेसी-680834पी),
10 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

दफादार तम्पी एस (सं. 6376727एच अब जेसी-680835एक्स),
16 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

दफादार पाती राम सिंह (सं. 6376748वाई अब जेसी-680836ए),
17 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

दफादार एम के चौधरी (सं. 6376907एल अब जेसी-680837एच),
01 अक्टूबर 2005

दफादार एस के सिंह (सं. 6376953ए अब जेसी-680848पी),
10 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005*

दफादार सत्य नारायण (सं. 6376971ए अब जेसी-680849एक्स),
18 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005*

दफादार उदल राम (सं. 6377005ए अब जेसी-680850एम),
09 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

दफादार बी बी राजत (सं. 6377261के अब जेसी-680853ए),
10 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005*

दफादार अनंत कुमार तिवारी (सं. 6476898एम अब
जेसी-680809डब्ल्यू), 11 नवम्बर 2005/28 मई 2005*

दफादार भवानी दीन (सं. 6471766एम अब जेसी-680810एल),
07 नवम्बर 2005/25 जून 2005*

दफादार बिशर्जन ठाकुर (सं. 6471875वाई अब जेसी-680812डब्ल्यू),
09 नवम्बर 2005/25 जून 2005*

दफादार बी सी गोगई (सं. 6471999एन अब जेसी-680821एक्स),
17 नवम्बर 2005/01 अगस्त 2005*

दफादार एस एन सिंह (सं. 6471985एन अब जेसी-680825एन),
09 नवम्बर 2005/01 अगस्त 2005*

दफादार मुक्ता राम कौपिंग (सं. 6472022एन अब जेसी-680829के),
09 दिसम्बर 2005/01 अगस्त 2005*

दफादार अशोक कुमार जोगी (सं. 6485387एफ अब जेसी-
680830वाई), 08 नवम्बर 2005/20 अगस्त 2005*

दफादार मार्सल हेरेंज (सं. 6471667के अब जेसी-680831एफ), 12
नवम्बर 2005/20 अगस्त 2005*

दफादार धर्म सिंह (सं. 6472153वाई अब जेसी-680842एन), 07
फरवरी 2006/01 अक्टूबर 2005*

दफादार आदेश कुमार (सं. 6471782के अब जेसी-680845एफ),
01 फरवरी 2006/29 अक्टूबर 2005*

दफादार राम गति सिंह (सं. 6471833एम अब जेसी-680861वाई),
07 फरवरी 2006/01 नवम्बर 2005*

दफादार ओम प्रकाश राम (सं. 6472297एफ अब जेसी-680865पी),
06 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

दफादार कमलेश सहनी (सं. 6472307ए अब जेसी-680867ए),
02 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

दफादार लाल सिंह यादव (सं. 6483291ए अब जेसी-680881एम),
06 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

दफादार राजू के के (सं. 6472609एम अब जेसी-680894के),
18 मार्च 2006/10 दिसम्बर 2005*

दफादार चिंतामनि पती (सं. 6472349एम अब जेसी-680895एम),
13 अप्रैल 2006/10 दिसम्बर 2005*

दफादार गंगा राम हंस (सं. 6472680ए अब जेसी-680897एक्स),
26 अप्रैल 2006/01 जनवरी 2006*

दफादार राजेंद्र प्रसाद (सं. 6472659वाई अब जेसी-680900एम),
01 अप्रैल 2006/01 जनवरी 2006*

दफादार परसु राम यादव (सं. 6472768के अब जेसी-680904एच),
15 मार्च 2006/01 जनवरी 2006*

दफादार काली दास टोपो (सं. 6471975के अब जेसी-680912एफ),
27 अप्रैल 2006/21 जनवरी 2006*

दफादार ब्रिजनंदन राय (सं. 6472596ए अब जेसी-680917ए),
19 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006*

दफादार प्रवाकर पत्रा (सं. 6471578एम अब जेसी-680911वाई),
14 मार्च 2006/21 जनवरी 2006*

पक्के नायब रिसालदार के रैंक में (एस एच जी डी)

दफादार अहमद अली (सं. 6377506एच अब जेसी-680921एच),
02 मई 2006/21 जनवरी 2006*

*वेतन और भत्ते पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दी जाती है।

एस पी शर्मा
प्रवर सचिव

सं. 452, दिनांक 22 अगस्त 2006--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की
सहर्ष पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

वैयक्तिक संख्या, नाम, आर्म और सब्सटैंटिव तिथि

37380 टी. आर. देवगन आर्टी, 01 अक्टूबर 2005

38313 रघवीर सिंह इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005

37647 कुलवन्त सिंह इन्ट, 01 अक्टूबर 2005

37925 पी. प्रेम कुमार ईएमई, 01 अक्टूबर 2005

38667 पी एन चौधरी आर्टी, 01 अक्टूबर 2005

38673 मंजीत मेहता इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005

38834 कुलदीप यादव इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005

37723 राकेश वालिया ए ओ सी, 01 अक्टूबर 2005

39067 एस के आहूजा इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005

39068 किरनजीत सिंह एसी, 01 अक्टूबर 2005

39088 संजीव सूद इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005

- 39154 एस दत्ता मेक, 01 अक्टूबर 2005
- 39270 नवीन कुमार आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
- 39334 एस एन शर्मा आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
- 39415 एन पी रेड्डी ए ई सी, 01 अक्टूबर 2005
- 37736 ललित पाण्डे मेक, 01 अक्टूबर 2005
- 37738 पी के शर्मा जैग, 01 अक्टूबर 2005
- 37739 एस एस यादव जैग, 01 अक्टूबर 2005
- 37740 ए पस्सी आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
- 37742 बलवान सिंह इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 37743 एस एस यादव ए सी, 01 अक्टूबर 2005
- 37745 अरविन्द ठाकुर ए सी, 01 अक्टूबर 2005
- 37746 महावीर एस गौड़ ए एस सी, 01 अक्टूबर 2005
- 37751 के सी महाजन ए ओ सी, 01 अक्टूबर 2005
- 37755 ए डेनिस इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 37756 जी एस चुग आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
- 37759 ए नारायण इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 37762 तेजिन्दर सिंह इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 37769 वी जी रामाकृष्णन सिग्नल्स, 01 अक्टूबर 2005
- 37782 राजीव गुप्ता ए ए डी, 01 अक्टूबर 2005
- 37789 जी पी एस साहनी इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 37790 आर नागपाल ए ओ सी, 01 अक्टूबर 2005
- 37793 एन खन्ना जैग, 01 अक्टूबर 2005
- 39433 के पी भट्ट सिग्नल्स, 01 अक्टूबर 2005
- 39434 एम एस कोहली ए सी, 01 अक्टूबर 2005
- 39435 संजीव बजाज इंजीनियर्स, 01 अक्टूबर 2005
- 39436 एस के सैनी इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 39437 एस टी उपा सैनी इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 39438 पी सी धिमैय्या मेक, 01 अक्टूबर 2005
- 39439 वी जॉर्ज आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
- 39440 एस एस बेंस इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 39441 राजबीर सिंह इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 39443 एम एस खरा आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
- 39444 सी के सूद ई एम ई, 01 अक्टूबर 2005
- 39445 एस एस हसब्नीस इंजीनियर्स, 01 अक्टूबर 2005
- 39450 अमृतपाल सिंह ए सी, 01 अक्टूबर 2005
- 39454 एस के थापा इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 39455 जी पी सिंह ए एस सी, 01 अक्टूबर 2005
- 39457 एम एस घूरा इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 39458 ए पी डेरे ए सी, 01 अक्टूबर 2005
- 39461 ए पी एस रावत इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 39464 एम एच ठाकुर ए एस सी, 01 अक्टूबर 2005
- 39465 ए एस बेदी इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 39466 के बी मल इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 39468 एच एस भगत इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 39470 एम एम गुप्ता इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 39471 आर ए वेंकटरमण गार्ड्स, 01 अक्टूबर 2005
- 39472 जे के मरवाल इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 39476 रवि बेदी ए सी, 01 अक्टूबर 2005
- 39478 सुनील कपिला सिग्नल्स, 01 अक्टूबर 2005
- 39481 एस आर चौधरी ए ओ सी, 01 अक्टूबर 2005
- 39482 पी एस राठौर आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
- 39484 हरचरण सिंह इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 39485 एस एस यादव इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 39486 शिशुपाल सिंह इन्ट, 01 अक्टूबर 2005
- 39488 अरूण कुमार इंजीनियर्स, 01 अक्टूबर 2005
- 39489 हरभोपिन्दर सिंह ए एस सी, 01 अक्टूबर 2005
- 39490 वी एस शेखावत इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 39491 ए के दास इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 39492 ए चौहान इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 39496 सत्यपाल इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 39499 एम रामाचन्द्रन सिग्नल्स, 01 अक्टूबर 2005
- 39500 सी ई फर्नांडिस इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 39501 ए पी सिंह ए ए डी, 01 अक्टूबर 2005
- 39504 एस एस काले इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 39506 एस बी सज्जन इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
- 39510 सुधीर लाम्बा आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
- 39512 नीरज वर्मा आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
- 39517 जी करूणाकरन इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005

39518 रवि प्रसाद ए सी, 01 अक्टूबर 2005	39603 जे एस पठनिया ए ओ सी, 01 अक्टूबर 2005
39521 वाई टी जैन आर्टी, 01 अक्टूबर 2005	39604 ए अस्थाना इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39522 जे एस नेगी इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	39605 एस एस छिल्लर आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
39523 ए के राघव आर्टी, 01 अक्टूबर 2005	39606 राजीव छिब ए सी, 01 अक्टूबर 2005
39525 संजय कुमार ए ए डी, 01 अक्टूबर 2005	39607 आई एस घुमन गार्ड्स, 01 अक्टूबर 2005
39537 एन सी मेहता आर्टी, 01 अक्टूबर 2005	39608 एन के भाटिया इन्ट, 01 अक्टूबर 2005
39545 जे के डंग इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	39609 ए ओहरी इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39546 हर विजय सिंह सिग्नल्स, 01 अक्टूबर 2005	39616 आर के गुप्ता ए ए डी, 01 अक्टूबर 2005
39548 एस एस देवरा इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	39617 पी एस सनवाल इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39550 नूतन प्रभात सिग्नल्स, 01 अक्टूबर 2005	39621 आर के भारद्वाज आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
39555 के जगन्नाथन ए ए डी, 01 अक्टूबर 2005	39625 अश्विनी गुलाटी ई एम ई, 01 अक्टूबर 2005
39556 के जे सिंह आर्टी, 01 अक्टूबर 2005	39636 एस एस रूहिल इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39557 पुरूषोत्तम सिंह इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	39637 सी पी सिंह ए ओ सी, 01 अक्टूबर 2005
39560 वी एस वर्मा मैक, 01 अक्टूबर 2005	39642 एम जी नायर इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39562 एस पी एहलावत इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	39643 राजीव एडवाइर्स ए सी, 01 अक्टूबर 2005
39565 विनोद पन्त सिग्नल्स, 01 अक्टूबर 2005	39646 एन सनल कुमार इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39566 जी एस मंगत इंजीनियर्स, 01 अक्टूबर 2005	39647 डी बक्षी गार्ड्स, 01 अक्टूबर 2005
39569 पी आर एस चौधरी आर्टी, 01 अक्टूबर 2005	39650 आर घई इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39570 आर एन पाण्डे आर्टी, 01 अक्टूबर 2005	39653 दीपक अरोड़ा आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
39572 राजीव जेटली इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	39655 एच जुनेजा इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39577 हरिहरण रवि सिग्नल्स, 01 अक्टूबर 2005	39656 डी शर्मा इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39579 राजीव चोपड़ा आर्टी, 01 अक्टूबर 2005	39661 एस पी कुलकर्णी इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39581 बलराज सिंह इंजीनियर्स, 01 अक्टूबर 2005	39665 करूणाकरण पी इन्ट, 01 अक्टूबर 2005
39583 जे एन नायर ई एम ई, 01 अक्टूबर 2005	39666 एच सी पाठक इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39590 एच ठकराल इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	39669 एच पी एस पाल मैक, 01 अक्टूबर 2005
39591 सुनील कुमार आर्टी, 01 अक्टूबर 2005	39673 जे एस यादव ए सी, 01 अक्टूबर 2005
39594 जे आर चन्द्रा इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	39675 विजय सिंह इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39596 पी एस नरवाल इंजीनियर्स, 01 अक्टूबर 2005	39676 डी वी एस राणा इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39598 जी जयशंकर इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	39678 बी शोम आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
39600 एस सी डब्ल्यू घाट पाण्डे इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	39682 एस के सिंह आर्टी, 01 अक्टूबर 2005

39693 राकेश हुरा, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	37828 श्री ओम सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39696 जे टी चाकूर, ए ओ सी, 01 अक्टूबर 2005	37830 राजेश सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39698 राजीव नाथ सिंह, मैक, 01 अक्टूबर 2005	37833 पी कुमार, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39700 ए हुसैन, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005	37836 एन के मोहन, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
39709 एस एस सलूजा, ए ओ सी, 01 अक्टूबर 2005	37838 एन कुमार, ए ओ सी, 01 अक्टूबर 2005
39739 आर श्रीवास्तव, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005	37840 आर गंगेले, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
39747 जी पाठक, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	37851 एस एस पठानिया, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39751 हरपाल सिंह, ए सी, 01 अक्टूबर 2005	37853 के वी पी एस हुण्डल, ए एस सी, 01 अक्टूबर 2005
39756 एन पी सिंह, ए ओ सी, 01 अक्टूबर 2005	37855 टी परशाद, जैग, 01 अक्टूबर 2005
39769 डी वी राजा, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	37856 एन के कोहली, जैग, 01 अक्टूबर 2005
39775 एस श्रीनिवासन, ई एम ई, 01 अक्टूबर 2005	37857 ए हरकौली, जैग, 01 अक्टूबर 2005
39780 के के पन्त, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	39864 वी डी डोगरा, ए सी, 01 अक्टूबर 2005
39800 श्रीष कम्बोज, ए ई सी, 01 अक्टूबर 2005	39865 माइकल मैथ्यूज, इंजीनियर्स, 01 अक्टूबर 2005
39807 बी ए कुमार, ए ई सी, 01 अक्टूबर 2005	39867 ए श्रीवास्तव, मैक, 01 अक्टूबर 2005
39820 एम के भारद्वाज, ई एम ई, 01 अक्टूबर 2005	39868 एस श्रीवास्तव, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
39823 बी एस राठौर, ए ई सी, 01 अक्टूबर 2005	39869 ए के आहूजा, मैक, 01 अक्टूबर 2005
39832 जी के चोपड़ा, ए ई सी, 01 अक्टूबर 2005	39870 एस के माथुर, ई एम ई, 01 अक्टूबर 2005
39860 के मुखर्जी, ए ई सी, 01 अक्टूबर 2005	39871 एस के उपाध्याय, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
41437 आर एस शर्मा, इंजीनियर्स, 01 अक्टूबर 2005	39872 अनिल कपूर, ई एम ई, 01 अक्टूबर 2005
41439 एम एस वधवा, ईएमई, 01 अक्टूबर 2005	39874 तरणजीत सिंह, ए सी, 01 अक्टूबर 2005
41442 टी एस नेगी, सिग्नल्स, 01 अक्टूबर 2005	39875 जी एस बेन्स, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
41444 ए के बिश्वास, इंजीनियर्स, 01 अक्टूबर 2005	39876 एस डी एस हेयर, ए सी, 01 अक्टूबर 2005
41445 भुपिन्दर सिंह, इंजीनियर्स, 01 अक्टूबर 2005	39879 ए के धर, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
41456 आर के आनन्द, सिग्नल्स, 01 अक्टूबर 2005	39881 तोलीराम सोमतिया, ए ओ सी, 01 अक्टूबर 2005
39573 आर कुमार, ए ओ सी, 01 अक्टूबर 2005	39885 एच के कालरा, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
37807 आत्मा शरण, ए सी, 01 अक्टूबर 2005	39888 अश्विनी शर्मा, ई एम ई, 01 अक्टूबर 2005
37811 एस टी रेड्डी, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005	39894 कंवल जीत सिंह, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
37813 विनोद कुमार, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	39897 बी बी वत्स, गाइड्स, 01 अक्टूबर 2005
37814 प्रमोद सिंह, ए ओ सी, 01 अक्टूबर 2005	39898 डी एस आहूजा, इंजीनियर्स, 01 अक्टूबर 2005
37816 आर पी एस राय, ए ओ सी, 01 अक्टूबर 2005	

39904 एन एन सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	39993 पी वर्गिस, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39909 पी एस संधू, मैक, 01 अक्टूबर 2005	39995 एस एस मामक, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
39910 सी रामाचन्द्रन, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	39996 आर सभरवाल, सिग्नल्स, 01 अक्टूबर 2005
39911 अनिल सोफत, एएडी, 01 अक्टूबर 2005	39998 वी के जसवाल, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39915 ए भारद्वाज, एसी, 01 अक्टूबर 2005	40001 एच सी राय, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39919 ए के शर्मा, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	40003 एस हाण्डा, आर्मी एविएशन, 01 अक्टूबर 2005
39920 पी कोतनाला, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	40004 पी एस संधू, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39921 के एस शाजी, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	40005 जे के बंसल, सिग्नल्स, 01 अक्टूबर 2005
39922 पी सक्सेना, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	40007 वाई वी के मोहन, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39924 गुरचरण सिंह, गाड्स, 01 अक्टूबर 2005	40008 एस बी सिंह, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
39927 प्रदीप कटोच, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	40009 एस पी माहुले, एएडी, 01 अक्टूबर 2005
39929 सरनजीत सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	40010 आर वी अठावले, एसी, 01 अक्टूबर 2005
39930 वी पी एस भाकुनी, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	40012 अमरदीप सिंह, एएससी, 01 अक्टूबर 2005
39940 जगतबीर सिंह, एसी, 01 अक्टूबर 2005	40013 ए के ठाकूर, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
39943 अजय वाधवा, इंजीनियर्स, 01 अक्टूबर 2005	40014 अजय सिंह, एसी, 01 अक्टूबर 2005
39956 जी एस सांधा, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	40019 ए के शर्मा, एएडी, 01 अक्टूबर 2005
39959 के जे सिंह, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005	40025 गिरिराज सिंह, एओसी, 01 अक्टूबर 2005
39966 वी एस रंधावा, ईएमई, 01 अक्टूबर 2005	40028 एसपीएस कोहली, इंजीनियर्स, 01 अक्टूबर 2005
39967 पंकज महरोत्रा, एएडी, 01 अक्टूबर 2005	40030 के एस सेल्वन, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39968 सी के रमेश, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	40031 संजीव कनल, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
39970 एस आटे, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005	40032 ए एस चन्धोक, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39971 चमकौर सिंह, एएससी, 01 अक्टूबर 2005	40033 एस सभरवाल, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
39972 ए माथुर, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	40039 ए के मनराय, एओसी, 01 अक्टूबर 2005
39975 के वी कुबेर, सिग्नल्स, 01 अक्टूबर 2005	40040 एम खरे, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
39977 एन एस राव, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005	40046 तारा चन्द, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
39980 डी एस क्लेर, मैक, 01 अक्टूबर 2005	40060 जी जे सिंह, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
39985 आर एस गिल, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	40064 वी सी चित्रे, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
39988 एम के यादव, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	40076 ए एस ओबराय, मैक, 01 अक्टूबर 2005
39990 ए सिंधवानी, एएडी, 01 अक्टूबर 2005	40078 ए एस सिधू आर्मी, एविएशन, 01 अक्टूबर 2005
39992 अनूप कुमार वी, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005	

40082 ए एस घूमन, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
 40083 बी रामाचन्द्रन, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
 40088 ए एस परमार, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
 40090 विजय कुमार, एसी, 01 अक्टूबर 2005
 40092 एस एस कुमार, इंजीनियर्स, 01 अक्टूबर 2005
 40094 मनदीप सिंह, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
 40096 एम एम हुसैन, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
 40097 राजन कोचर, एओसी, 01 अक्टूबर 2005
 40098 दुष्यन्त सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
 40099 गिरिश गोगिया, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
 40101 आर के जग्गा, एसी, 01 अक्टूबर 2005
 40102 बी एस चीमा, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
 40106 अनिल शर्मा, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
 40115 अरविन्द सेठी, मैक, 01 अक्टूबर 2005
 40120 कुलविन्दर सिंह, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
 40125 ए एस निरजर, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
 40133 एस सी मेस्टन, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
 40136 अमित शर्मा, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
 40139 देशबीर सिंह, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
 40144 आर पी जोशी, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
 40151 रंजीत सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
 40156 संदीप शर्मा, सिग्नल्स, 01 अक्टूबर 2005
 40158 ए कैन्थला, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
 40164 एम एल एन एस कुमार, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
 40167 डी एस ग्रेवाल, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
 40189 डी आर कुमार, एएडी, 01 अक्टूबर 2005
 40198 प्रकाश तिवारी, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
 40202 एस के सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
 40216 जी एस तलवार, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
 40235 आर गोपाल, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
 40238 यू सी डडवाल, मैक, 01 अक्टूबर 2005
 40240 वी नांगिया, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
 40244 एस गोपालन, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005
 40248 वी पुरी, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005

40257 एस के छाबड़ा, एएससी, 01 अक्टूबर 2005
 40264 जसविन्दर सिंह, एईसी, 01 अक्टूबर 2005
 39906 ए महरोत्रा, आर्टी, 01 अक्टूबर 2005
 41814 दीपक शर्मा, इंजीनियर्स, 01 अक्टूबर 2005
 41817 आर जी गोस्वामी, ईएमई, 01 अक्टूबर 2005
 41820 आर के जोशी, सिग्नल्स, 01 अक्टूबर 2005
 41838 एस के सिंह, सिग्नल्स, 01 अक्टूबर 2005
 41839 आर छिब्बर, सिग्नल्स, 01 अक्टूबर 2005
 41844 दिनेश कुमार, सिग्नल्स, 01 अक्टूबर 2005

अजय गोयल,
 उप निदेशक
 एमएस-8ए

सं. 453, दिनांक 21 अगस्त 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारी को सहर्ष पदोन्नत करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले. कर्नल

आई सी सं., नाम और आर्म

40749 पी एस पानेसर, सिग्नल्स

--16 दिसम्बर 2004--

शिव राम बैरवा,
 उप-निदेशक
 एम एस-8सी

सं. 454, दिनांक 22 अगस्त 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर जनरल के मूल रैंक में

नाम, आई सी आर्म एवं मेजर जनरल के मूल रैंक में प्रभावी तिथि

ब्रिगे. एस के मूर्ति, वीएसएम (आईसी-23785), सिग्नल्स--16 मार्च 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01 फरवरी 2004 से दी जाएगी।

एन के फूकन
 एएमएस/एमएस(एक्स)

वायु शाखा

सं. 455, दिनांक 22 अगस्त 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

लेखा शाखा

एयर वॉयस मार्शल के मूल रैंक में

आर बी एस कालरा (13690), लेखा--01 अप्रैल 2006

संभारिकी शाखा

एयर वॉयस मार्शल के मूल रैंक में

जे बी एस बोपाराय (13108), संभा--02 जनवरी 2006

के बी शंकर

संयुक्त निदेशक कार्मिक (अधिकारी)-2(बी)

सं. 456, दिनांक 17 अगस्त 2006--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्री सतपाल सिंह को 01 अगस्त, 2006 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किए जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में निजी सचिव श्री विनय कुमार दीवान को 1 अगस्त, 2006 के पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान करते हैं।

वी सरस्वती
उप सचिव

सेना शाखा

सं. 457, दिनांक 18 अगस्त 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

सेवानिवृत्त

रैंक व नाम, टीए नं., इन्फैन्ट्री एवं दिनांक

कर्नल वी के बाजपाई (41481), इन्फैन्ट्री--31 जुलाई 2004

ले. कर्नल (सिले) बलबीर सिंह (41736), इन्फैन्ट्री--31 अक्टूबर 2004

कैप्टन उदय कुमार (42110), इन्फैन्ट्री --31 दिसम्बर 2004

बी के मल्होत्रा
अवर सचिव

(वायु शाखा)

सं. 458, दिनांक 21 अगस्त 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर को उसके नाम के सामने दी गई तारीख से उड़ान (पायलट) से प्रशासनिक शाखा में स्थानान्तरित करते हैं। इस शाखा में उसकी समायोजित वरिष्ठता उसी प्रकार मानी जाएगी मानो उसे मूल कमीशन ही प्रशासनिक शाखा में प्राप्त हुआ है। अफसर को वायु सेना सूची में स्क्वाड्रन लीडर टी एस वासुदेव (25900) प्रशा. व स्क्वाड्रन लीडर आर एस कुशवाहा (26132) प्रशा. के मध्य रखा जाएगा। अफसर 27 फरवरी 2006 से स्थायी निम्न चिकित्सा वर्ग में होने की वजह से उसी दिन से उड़ान भत्ते का हकदार नहीं होगा। वा.से. मु. के पत्र संख्या वा.से.मु./21901/25847/पी.ओ.-3ई दिनांक 29 मई 2006।

स्क्वाड्रन लीडर आर कुमार (25847) उड़ान (पायलट) से प्रशासनिक शाखा में दिनांक 27 फरवरी 2006 से।

पी सिंह
विंग कमाण्डर
जे.डी.पी.ओ.-3ई

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 16th September 2006

No. 445, dated 17th August 2006.—In partial modification of this Ministry Notification of even number dated the 4th April, 2006, the President is pleased to appoint Shri Chetan B. Sanghi, IAS(AGMU : 88), as Private Secretary to Raksha Rajya Mantri (Shri M.M. Pallam Raju) at the level of Director in the scale of pay of Rs. 15,100-400-18,300/- w.e.f. 4.4.2006(FN) till he ceases to function as Private Secretary to RRM. He is eligible for alternative posting at the Centre in the event of his ceasing to function as Private Secretary to the Minister. His total central tenure for the purpose for counting the tenure for alternative posting once he ceases to be Private Secretary to the Minister would be 4 years 6 months and 6 days. His central tenure as Private Secretary to the Minister will be counted with effect from 4.4.2006.

The President is pleased to appoint the Shri Dal Chand, ad-hoc Section Officers borne on the CSS Cadre of Ministry of Home Affairs as Section Officer on ad-hoc basis in the Ministry of Defence in the Scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 31.7.2006(AN) for a period upto 31.12.2006 or until further orders, whichever is earlier, subject to the following conditions:—

- (i) The ad-hoc appointments shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS;
- (ii) The ad-hoc arrangement may continue till regular candidates in Section Officers' Grade are available either through Seniority quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LCDE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular officers from the date the regular Section Officers join duty in their respective cadre allotted to them by the DOP&T.

The President is pleased to appoint Shri Om Prakash Yadav, ad-hoc Section Officers borne on the CSS Cadre of Ministry of Home Affairs as Section Officer on ad-hoc basis in the Ministry of Defence in the Scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 26.7.2006(FN) for a period upto 31.12.2006 or until further orders, whichever is earlier, subject to the following conditions:—

- (i) The ad-hoc appointments shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS;
- (ii) The ad-hoc arrangement may continue till regular candidates in Section Officers' Grade are available

either through Seniority quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LCDE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular officers from the date the regular Section Officers join duty in their respective cadre allotted to them by the DOP&T.

The President is pleased to appoint Smt. Jyotsna Gupta, a regular Assistant borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence (presently working as Section Officer on ad-hoc basis), as Section Officer on regular basis in the same Ministry in the scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 05.07.2006(FN) until further orders, consequent on inclusion of her name in the Select List of Section Officers' Grade (Examination Quota) for the year 2002.

2. This supersedes this Ministry's notification of even number dated 18th July, 2006.

The President is pleased to appoint Shri K.K. Singh, a regular Assistant (officiating as Section Officer on ad-hoc basis), borne on the CSS Cadre of Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence in the Scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 26.07.2006(FN) until further orders, consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Seniority Quota) for the year 2003.

The President is pleased to appoint Shri J. Hari Prasad, a regular Assistant borne on the CSS Cadre of Ministry of Commerce & Industry, as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence in the Scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 19.07.2006(AN) until further orders, consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Seniority Quota) for the year 2003.

The President is pleased to appoint Shri Venukuttan Nair P., a regular Assistant (officiating as Section Officer on ad-hoc basis), borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence, as Section Officer on regular basis in the same Ministry in the Scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 29.07.2006(FN) until further orders, consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Seniority Quota) for the year 2003.

V. SARASWATHY
Dy. Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL
QUALITY ASSURANCE

No. 446, dated 22nd August 2006.—President is pleased to make the following appointments in DGAQA, Ministry of Defence:—

1. Shri Rajendra Kumar Tiwari, as Temporary Senior Scientific Officer Grade-II in OCRI, DGAQA, Ministry of Defence, PB No. 1782, Vimanpura Post, Bangalore-17, on probation for a period of two years with effect from

29 Jun 2006(FN).

2. Shri Kamalkishor Damodar Bajaj, as temporary Senior Scientific Officer Grade-II, in OCRI, DGAQA, Ministry of Defence, C/o HAL, Nasik Division, Ojhar-422207, on probation for a period of two years with effect from 12 Jun 2006(FN).

V. SETHUMADHAVAN
Under Secy.

No. 447, dated 18th August 2006.—The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff w.e.f. 01st July 2006:—

Honorary Army ADC (EME)

IC-17280 Lt. Gen. VC Jain, PVSM, AVSM, VSM* (EME)

S. D. BANGA
Under Secy.

NAVY BRANCH

No. 448, dated 21st August 2006.—The President is pleased to make the following appointment in the Engineering/Electrical Branch of the Indian Navy for direct entry scheme under the Ministry of Defence Letter No. MF/1822/DES/Vol-IV/03 dated 08 Apr 2003 from the date shown against the name:—

To be Sub Lt (On Probation)

Direct Entry Scheme ()

Name, Personal Number, Type of Commission and Date of Commission

Engineering Cadre

Sub Lt Gavi Kumar (42289K), SSC, 07 Jan 2002

Sub Lt Biswanath Biswas (42295Z), SSC, 07 Jan 2002

Sub Lt Anoop Ranjan (42300K), SSC, 07 Jan 2002

Sub Lt Mahendra Madhukar Kakde (42302R), SSC, 07 Jan 2002

Sub Lt Vikas Verma (42305Y), SSC, 07 Jan 2002

Sub Lt Abhijit Sudhakar Ganjare (42306Z), SSC, 07 Jan 2002

Sub Lt Arun Prahlad Deshpande (42308B), SSC, 07 Jan 2002

Sub Lt Sandeep Joshi (42310H), SSC, 07 Jan 2002

Sub Lt Siddlingeshwar Chandrashekar Nulvi (42312N), SSC, 07 Jan 2002

Sub Lt Rahul Dalal (42315W), SSC, 07 Jan 2002

ELECTRICAL BRANCH

Sub Lt Deepak Tomar (51839R), SSC, 07 Jan 2002

Sub Lt Shreeram Marathe (51842Y), SSC, 07 Jan 2002

Sub Lt Ravi Ranjan Singh (51845B), SSC, 07 Jan 2002

Sub Lt Gurpreet Singh (51848K), SSC, 07 Jan 2002

Sub Lt Manav Gandhi (518352W), SSC, 07 Jan 2002

Sub Lt N Umanath Arunachalam (51853Y), SSC, 07 Jan 2002

The President is pleased to make the following appointment in the Engineering Branch of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence Letter No. MF/1822/DES/271/US(P)/D(N-II) dated 24 Feb 2003 from the date shown against the name :—

To be Sub Lt (On Probation)

Direct Entry Scheme (Engineering Cadre)

Name	Personal Number	Type of Commission	Date of Commission
Nabira Amit Govindlal	42231-B	SSC	02.07.2001
Grewal Birendrapal Singh	42234-K	SSC	02.07.2001
Nilkund Sudhendra G	42236-R	SSC	02.07.2001
Vijay Saxena	42243-F	SSC	02.07.2001

The President is pleased to make the following appointment in the Engineering Branch (General Service Cadre), Engineering Branch (Naval Architecture Cadre), Electrical Branch (General Service Cadre) and Electrical Branch (Submarine Cadre) of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence Letter No. MF/1822/DES/Vol-IV/03 dated 12 May 2006 from the date shown against the name :—

To be Sub Lt (On Probation)

Name of the Officers	P. No.	Type of Commission	Date of Commission
1	2	3	4
Engineering Branch (General Service Cadre)			
Sangamesh	42318-A	SSC	12.08.2002
Sanjay Raghuwanshi	42320-F	SSC	12.08.2002
Amit Sood	42321-H	SSC	12.08.2002
Samuel Sandeep Rapaka	42322-K	SSC	12.08.2002
Anand Uriti	42324-R	SSC	12.08.2002
Akram Iliyas Khan	42325-T	SSC	12.08.2002
K Subash	42326-W	SSC	12.08.2002
M Ganesh	42327-Y	SSC	12.08.2002
Nilesh Devidas Zope	42328-Z	SSC	12.08.2002
Tushar Gopalrao Joshi	42329-A	SSC	12.08.2002
Ravi S	42332-H	SSC	12.08.2002

1	2	3	4
Kiran R Kakkeri	42333-K	SSC	12.08.2002
Anoop P Kurian	42334-N	SSC	12.08.2002
G Shasi Kiran	42335-R	SSC	12.08.2002
Sanju J	42337-W	SSC	12.08.2002
CR Mahendiran	42338-Y	SSC	12.08.2002
Praveen Gopalkrishnan	42339-Z	SSC	12.08.2002
A Sahane Charudatta	42340-A	SSC	12.08.2002
Nitin Mehta	42341-B	SSC	12.08.2002
Veeraj Karunakar	42342-F	SSC	12.08.2002
TK Abraham	42343-H	SSC	12.08.2002
Pradeep Kumar Singh	42344-K	SSC	12.08.2002
Ajay Singh	42345-N	SSC	12.08.2002
DK Karthik	42347-T	SSC	12.08.2002
Anoop Cherian	42348-W	SSC	12.08.2002
Varghese Lincoln	42349-Y	SSC	12.08.2002
Arun Kumar	42350-Z	SSC	12.08.2002
KB Kishan	42351-A	SSC	12.08.2002
Vijilesh Thayath	42352-B	SSC	12.08.2002
Nikhil Shrikant Desmukh	42353-F	SSC	12.08.2002
RM Ranjith	42354-H	SSC	12.08.2002
Prasanna Madhu	42355-K	SSC	12.08.2002
Girish Rao Jadhav D	42356-N	SSC	14.08.2002
KP Shabareesha	42357-R	SSC	17.08.2002
Rajarajan Rajendran	42358-T	SSC	17.08.2002
S Prakash	42359-W	SSC	17.08.2002
NN Subhash	42361-Z	SSC	22.08.2002
R Nagaraj	42362-A	SSC	23.08.2002
Arun Sasidharan	42363-B	SSC	23.08.2002
Engineering Branch (Naval Architecture Cadre)			
Mukkannickal Joe Paul	42319-B	SSC	12.08.2002
Varun Mahajan	42323-N	SSC	12.08.2002
Ajit Singh Yadav	42330-B	SSC	12.08.2002
Amit Dogra	42331-F	SSC	12.08.2002
Richa Verma	42336-T	SSC	12.08.2002
Pawan Kumar	42346-R	SSC	12.08.2002
Sarvesh Pai	42360-Y	SSC	22.08.2002
Electrical Branch (General Service Cadre)			
Manish Sugriv	51856-B	SSC	12.08.2002
Dudhmochan			
Sujit Kumar	51857-F	SSC	12.08.2002
Subrato Kumar Mandal	51858-H	SSC	12.08.2002
K Kumar Swamy	51859-K	SSC	12.08.2002

1	2	3	4
Mayank Jain	51860-N	SSC	12.08.2002
Sanket Mitra	51861-R	SSC	12.08.2002
Sachin Prahlad Dharmale	51862-T	SSC	12.08.2002
Girish Vijay Patil	51863-W	SSC	12.08.2002
Andy Charles Dennis	51864-Y	SSC	12.08.2002
Athar Khan	51865-Z	SSC	12.08.2002
KS Anish	51866-A	SSC	12.08.2002
Rahul Grover	51867-B	SSC	12.08.2002
Ivin Sam Arputha Singh J	51868-F	SSC	12.08.2002
Rajanish Sharma	51869-H	SSC	12.08.2002
Manish Kumar Yadav	51870-K	SSC	12.08.2002
N Anil Kumar	51871-N	SSC	12.08.2002
Prabhat Kumar Sinha	51873-T	SSC	12.08.2002
Romeo Sharma	51874-W	SSC	12.08.2002
J Rajesh	51875-Y	SSC	12.08.2002
Pradeep Kushwaha	51876-Z	SSC	12.08.2002
Suraj Mukkatira	51877-A	SSC	12.08.2002
Casmir William	51878-B	SSC	12.08.2002
Rahul Bagul Gangadhar	51879-F	SSC	12.08.2002
Vijaish Balson	51880-H	SSC	12.08.2002
Mahesh Mukhedkar	51881-K	SSC	12.08.2002
Amiya Kumar Patra	51882-N	SSC	12.08.2002
Sudhir Singh	51883-R	SSC	12.08.2002
Raj Kumar Chaturvedi	51884-T	SSC	12.08.2002
Rishi Verma	51885-W	SSC	12.08.2002
V Jothi Prakas	51886-Y	SSC	12.08.2002
Sahaya John CKJ Nadar	51887-Z	SSC	12.08.2002
Arun Varghese	51888-A	SSC	14.08.2002

Electrical Branch (Submarine Cadre)

Veera Pradeep Kumar	51872-R	SSC	12.08.2002
Muramalla			

The President is pleased to make the following appointment in the Education Branch of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence Letter No. OF/1407 dated 15 Jul 2003 from the date shown against the name :—

To be Sub Lt (On Probation)

Direct Entry Scheme

Name	Personal Number	Type of Commission	Date of Commission
Jan 2002 Course			
Sub Lt Rishikesh Pancholi	70471-K	PC	07.01.2002

The President is pleased to make the following appointment in the Engineering/Electrical Branch of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence Letter No. OF/1506/NHQ/17/8/US (P)/D(N-II) dated 12 Dec 2002 and OF/1506/NHQ/DES/Vol-I dated 06 Aug 2003 respectively from the date shown against the name :—

To be Sub Lt (On Probation)

DIRECT ENTRY SCHEME

Name	Personal Number	Type of Commission	Date of Commission
Jul 2001 Course			
Sub Lt Satyapriya	05188-R	SSC	02.07.2001
Jan 2002 Course			
Sub Lt Nitin Roy	05307-K	PC	07.01.2002
Sub Lt Varun Singh	05308-N	PC	14.01.2002
Sub Lt A Venkat Prasad	05309-R	PC	16.01.2002

V. S. SALATHIA
Commander
JDMPR (R&R)

No. 449, dated 17th August 2006—The President is pleased to extend the appointment of the following regular Private Secretaries borne on the CSSS Cadre as Principal Private Secretary in the Ministry of Defence in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200, on ad-hoc basis for further period mentioned against each or till regular Principal Private Secretaries become available or until further orders, whichever is earlier :—

S.No.	Name of the Officer	From	To
	S/Shri		
1.	M. Sasidharan	01.07.2006	31.12.2006
2.	G.V. Singh	01.07.2006	31.12.2006
3.	A.S. Bharara	01.07.2006	31.12.2006
4.	B.C. Mehta	01.07.2006	31.12.2006
5.	Suresh Kumar	01.07.2006	31.12.2006

V. SARASWATHY
Dy. Secy.

No. 450, dated 17th August 2006—The services of Brig. P.S. Gill (IC-30375 N), Chief Director of Purchase (on deputation) in Army Purchase Organisation, Ministry of Defence are placed at the disposal Integrated HQ of MOD (Army) w.e.f. the afternoon of 25th July, 2005.

V. SARASWATHY
Dy. Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 451, dated 18th August 2006—The President is pleased to make the following promotion w.e.f. the date shown against their names :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Substantive Major

Capt Rakesh Sharma (V-549N), RVC, 16 Dec 2004

Capt Mohammed Meheub ur-Rahman (V-550H), RVC, 16 Dec 2004

Capt Vineet Butola (V-551L), RVC, 16 Dec 2004

Capt SJ Premkumar E (V-552N), RVC, 11 Dec 2005

Capt Neeraj Gupta (V-553Y), RVC, 16 Dec 2004

Capt Manav Deshwal (V-554Y), RVC, 16 Dec 2004

Capt Bhupender Bishnoi (V-555F), RVC, 16 Dec 2004

Capt MM Madhusudan (V-556K), RVC, 11 Dec 2005

Capt Nishant Rana (V-557M), RVC, 11 Dec 2005

Capt Anup R (V-558P), RVC, 11 Dec 2005

Capt Sanjay Jadhav (V-559X), RVC, 11 Dec 2005

Capt Manoj Kumar Das (V-560M), RVC, 10 Mar 2005

Capt Vijay Mahato (V-561P), RVC, 10 Mar 2005

REGULAR ARMY

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Chhabila Singh Yadav (JC-264797P), 01 Apr 2005

Nb Sub Thommachan OM (JC-264869N), 01 Apr 2005

Nb Sub Ved Singh (JC-264870H), 09 May 2005/01 Apr 2005*

Nb Sub Manoharan AV (JC-264787L), 01 Apr 2005

Nb Sub Kurandasu Satyanarayana (JC-264993P), 12 Apr 2005/01 Apr 2005*

Nb Sub Ram Kishan (JC-264879X), 01 Apr 2005

Nb Sub Bhavneshwar Singh (JC-265194L), 01 Apr 2005

Nb Sub Karam Singh Chouhan (JC-265638K), 01 Apr 2005

Nb Sub Amar Singh (JC-264931P), 18 May 2005/01 Apr 2005*

Nb Sub Sampuran Singh (JC-265066N), 20 Apr 2005/01 Apr 2005*

Nb Sub Virender Singh (JC-265362Y), 17 May 2005/01 Apr 2005*

Nb Sub Satyapal Singh (JC-265083N), 01 Apr 2005

Nb Sub Lal Singh (JC-265167P), 27 Apr 2005/01 Apr 2005*

- Nb Sub Nihal Singh (JC-265641K), 10 May 2005/01 Apr 2005*
- Nb Sub Azad Singh (JC-265036W), 01 Apr 2005
- Nb Sub Anil Kumar Panwar (JC-265414K), 01 Apr 2005
- Nb Sub Jagdish Singh (JC-265280W), 13 May 2005/01 Apr 2005*
- Nb Sub Vitthal Langatad (JC-265469N), 01 Apr 2005
- Nb Sub Raj Singh (JC-265716W), 01 Apr 2005
- Nb Sub Basant Kumar Dwivedi (JC-265900F), 14 May 2005/01 Apr 2005*
- Nb Sub Tek Chand (JC-265925N), 03 May 2005/01 Apr 2005*
- Nb Sub Kamlesh Kumar (JC-265875N), 27 Apr 2005/01 Apr 2005*
- Nb Sub Swarn Singh (JC-265929K), 01 Apr 2005
- Nb Sub Guru Dutt Singh (JC-266046M), 14 May 2005/01 Apr 2005*
- Nb Sub Satish Kumar Pandey (JC-266304F), 01 Apr 2005
- Nb Sub Krishan Kumar Yadav (JC-266212P), 09 Apr 2005/01 Apr 2005*
- Nb Sub Jaswant Singh (JC-263643W), 01 May 2005
- Nb Sub N Krishanan (JC-263824F), 02 Jun 2005/01 May 2005*
- Nb Sub Ugale Suryabhan Maruti (JC-263874M), 13 May 2005/01 May 2005*
- Nb Sub V Ramanathan (JC-264251P), 06 May 2005/01 May 2005*
- Nb Sub Mansukh Gorakhnath Sitaram (JC-264819H), 08 Jun 2005/01 May 2005*
- Nb Sub Heera Lal (JC-264740A), 16 Jun 2005/01 May 2005*
- Nb Sub Atwar Singh (JC-265741P), 12 May 2005/01 May 2005*
- Nb Sub Jodha Singh (JC-264956F), 12 May 2005/01 May 2005*
- Nb Sub Swaran Singh (JC-265168K), 04 May 2005/01 May 2005*
- Nb Sub Manjit Singh (JC-264732F), 16 May 2005/01 May 2005*
- Nb Sub Bhuwan Chandra Murari (JC-262924A), 02 Jun 2005/11 May 2005*
- Nb Sub Raghunath Yadav (JC-264919N), 06 Jun 2005/11 May 2005*
- Nb Sub Om Prakash (JC-262485A), 07 Jun 2005/11 May 2005*
- Nb Sub Vijaya Kumaran (JC-261718K), 04 Sep 2004/24 Aug 2004*
- Nb Sub Dilbag Singh (JC-266545F), 28 Feb 2005
- Nb Sub Kalika Prasad Yadav (JC-266742K), 23 Apr 2005/28 Feb 2005*
- Nb Sub Ranjit Kumar (JC-262644M), 01 Mar 2005
- Nb Sub Ram Kumar (JC-263361X), 11 Mar 2005/01 Mar 2005*
- Nb Sub Vimal Kumar B (JC-263713K), 09 Mar 2005/01 Mar 2005*
- Nb Sub Sable Gautam Narayan (JC-263053X), 11 Apr 2005/01 Mar 2005*
- Nb Sub Satendra Singh (JC-263830P), 01 Mar 2005
- Nb Sub Ramesh Chander (JC-264021F), 13 Mar 2005/01 Mar 2005*
- Nb Sub Bhagat Babaso Hari (JC-264481A), 01 Mar 2005
- Nb Sub Ranbhir Singh (JC-264485Y), 31 Mar 2005/01 Mar 2005*
- Nb Sub Venugopalan R (JC-264476X), 20 Apr 2005/01 Mar 2005*
- Nb Sub Gurjit Singh (JC-264584F), 01 Mar 2005
- Nb Sub R Vadivelu (JC-264995A), 01 Mar 2005
- Nb Sub Ajaib Singh (JC-265072F), 01 Mar 2005
- Nb Sub Ajit Singh (JC-265272X), 21 Mar 2005/01 Mar 2005*
- Nb Sub Perbhu Singh (JC-265607L), 25 Mar 2005/01 Mar 2005*
- Nb Sub Chajju Ram (JC-265356L), 04 Mar 2005/01 Mar 2005*
- Nb Sub Pancaraj V (JC-266811P), 09 Mar 2005/01 Mar 2005*
- Nb Sub Nrusingh Kumar Naik (JC-264672X), 01 Apr 2005/05 Mar 2005*
- Nb Sub Ram Singh Rajput (JC-264953N), 05 Apr 2005/09 Mar 2005*
- Nb Sub Balram P (JC-265503W), 28 Mar 2005/14 Mar 2005*
- Nb Sub Ram Rahis (JC-261924N), 01 Apr 2005
- Nb Sub Yogendra Kumar Shukla (JC-262598H), 04 Apr 2005/01 Apr 2005*
- Nb Sub Amar Singh (JC-263114K), 01 Apr 2005
- Nb Sub C Ramamurthy (JC-262824P), 08 Apr 2005/01 Apr 2005*
- Nb Sub Bishan Singh (JC-262629X), 01 Apr 2005
- Nb Sub Moti Lal Yadav (JC-262906X), 26 Apr 2005/01 Apr 2005*
- Nb Sub Dige Chandrakant Vithal (JC-262948K), 04 Apr 2005/01 Apr 2005*
- Nb Sub M Nataraja Reddy (JC-263368F), 01 Apr 2005
- Nb Sub Ratan Singh (JC-263849N), 01 Apr 2005

- Nb Sub Bir Singh (JC-263850H), 06 Apr 2005/01 Apr 2005*
- Nb Sub Mewa Singh (JC-263896L), 03 Apr 2005/01 Apr 2005*
- Nb Sub Arun Kumar Ghose (JC-263997Y), 01 Apr 2005
- Nb Sub Vijay Singh (JC-264119P), 14 Apr 2005/01 Apr 2005*
- Nb Sub Ashok Singh Rajput (JC-264515L), 05 Apr 2005/01 Apr 2005*
- Nb Sub Ishwar Singh (JC-264188L), 01 Apr 2005
- Nb Sub Dinesh Chand (JC-264499Y), 01 Apr 2005
- Nb Sub Sathe Vasant Antu (JC-264763F), 01 Apr 2005
- Nb Sub Kuldip Singh (JC-264339Y), 01 Apr 2005
- Nb Sub Bishan Singh (JC-264234P), 20 Apr 2005/01 Apr 2005*
- Nb Sub Sohan Lal (JC-264428X), 01 Apr 2005
- Nb Sub Om Prakash (JC-264684M), 02 Apr 2005/01 Apr 2005*
- Nb Sub Chavan Deelip Ramrao (JC-262658M), 01 Feb 2005
- Nb Sub Abhey Singh (JC-265728L), 02 Feb 2005/01 Feb 2005*
- Nb Sub P Ranga Samy (JC-265692X), 28 Feb 2005/01 Feb 2005*
- Nb Sub Sukh Chain Singh (JC-265487W), 14 Apr 2005/01 Feb 2005*
- Nb Sub Bhagwati Prasad (JC-265787X), 01 Apr 2005/01 Feb 2005*
- Nb Sub Veer Singh (JC-265489F), 01 Mar 2005/01 Feb 2005*
- Nb Sub Raj Kumar Singh (JC-266008W), 14 Feb 2005/01 Feb 2005*
- Nb Sub Raj Kumar (JC-265592M), 27 Apr 2005/01 Feb 2005*
- Nb Sub S Kulase Karan (JC-265833F), 29 Apr 2005/01 Feb 2005*
- Nb Sub Ram Nawmi (JC-265699F), 19 Mar 2005/01 Feb 2005*
- Nb Sub Pawan Kumar (JC-265906H), 23 Mar 2005/01 Feb 2005*
- Nb Sub A S Johar (JC-265979P), 03 Mar 2005/01 Feb 2005*
- Nb Sub Rameber Singh Malik (JC-266173F), 10 Apr 2005/01 Feb 2005*
- Nb Sub Dheeraj Singh Dhahima (JC-266650X), 24 Feb 2005/01 Feb 2005*
- Nb Sub V Subramanian (JC-266288P), 07 Mar 2005/01 Feb 2005*
- Nb Sub Pratap Singh (JC-265554W), 02 Mar 2005/02 Feb 2005*
- Nb Sub Ummad Singh Sisodiya (JC-265286X), 07 Mar 2005/03 Feb 2005*
- Nb Sub Naresh Kumar (JC-266079F), 21 Apr 2005/04 Feb 2005*
- Nb Sub Sukh Lal (JC-266206P), 21 Apr 2005/04 Feb 2005*
- Nb Sub Sardar Khan (JC-264183M), 28 Feb 2005/11 Feb 2005*
- Nb Sub Balwant Singh (JC-266289X), 12 Mar 2005/12 Feb 2005*
- Nb Sub Unni Pillai K (JC-264337N), 29 Mar 2005/16 Feb 2005*
- Nb Sub Rajpati Dubey (JC-264767X), 25 Mar 2005/17 Feb 2005*
- Nb Sub Badalg Ram Yadav (JC-266387X), 30 Mar 2005/20 Feb 2005*
- Nb Sub Kirpal Singh Yadav (JC-266611Y), 30 Mar 2005/21 Feb 2005*
- Nb Sub Atar Singh (JC-265926W), 13 Apr 2005/21 Feb 2005*
- Nb Sub Rajender Singh (JC-266532K), 15 Apr 2005/21 Feb 2005*
- Nb Sub Avtar Singh (JC-265871X), 02 Apr 2005/21 Feb 2005*
- Nb Sub Subramanian S (JC-266265N), 13 Apr 2005/21 Feb 2005*
- Nb Sub Deep Chand (JC-265063A), 02 Apr 2005/22 Feb 2005*
- Nb Sub Harjit Singh (JC-265827N), 18 Apr 2005/22 Feb 2005*
- Nb Sub N Rajendran (JC-266014K), 09 Apr 2005/22 Feb 2005*
- Nb Sub Jagar Nath (JC-266783N), 20 Apr 2005/24 Feb 2005*
- Nb Sub Ghan Shyam (JC-265930Y), 26 Apr 2005/25 Feb 2005*
- Nb Sub Ram Singh (JC-265329F), 13 Apr 2005/28 Feb 2005*
- Nb Sub Dharendra Singh (JC-266007N), 23 Apr 2005/27 Feb 2005*
- Nb Sub Nand Lal (JC-265631A), 28 Apr 2005/28 Feb 2005*
- Nb Sub Raj Kumar (JC-265579H), 01 Apr 2005/28 Feb 2005*
- Nb Sub Surjit Singh (JC-265879K), 09 Apr 2005/28 Feb 2005*

To be Nb Sub

Hav Gurdeep Singh (No. 14357941F now JC-268992K),
30 Feb 2006/01 Sep 2005*

Hav Shiv Bachan Singh (No. 14366653W now JC-
268993M), 08 Dec 2005

Hav Raj Pal (No. 14480613P now JC-268994P), 09 Dec
2005

Hav Vijay Gurung (No. 14489348L now JC-268995X),
10 Jan 2006/16 Dec 2005*

Hav Ravan Singh (No. 14347930F now JC-268996A),
20 Feb 2006/01 Jan 2006*

Hav Sunil Kumar Chaturvedi (No. 14398311W now JC-
268997H), 26 Feb 2006/01 Jan 2006*

Hav Ashok Kumar (No. 14475907Y now JC-268998L),
16 Feb 2006/01 Jan 2006*

RHM Achchhey Lal (No. 14477919M now JC-268999N),
08 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav Hiralal Patel (No. 14496228P now JC-269000P),
27 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav Vijayee Singh Yadava (No. 14400587N now JC-
269001X), 09 Apr 2006/08 Feb 2006*

Hav Karam Singh (No. 14365404L now JC-269002A),
20 Mar 2006/13 Feb 2006*

Hav Ratan Singh (No. 14399803F now JC-269003H),
16 Mar 2006/16 Feb 2006*

Hav Ramotar (No. 14486960K now JC-269004L), 01 Mar
2006

Hav Surjit Singh (No. 14362354A now JC-269005N),
08 Apr 2006/02 Mar 2006*

Hav Ramesh Chandra Pradhan (No. 14499988H now JC-
269006W), 26 Apr 2006/14 Mar 2006*

Hav Ramesh Chand (No. 14368345P now JC-269007Y),
27 Apr 2006/29 Mar 2006*

Hav Dinanath Yadav (No. 14380647N now JC-269008F),
14 Feb 2006/31 Oct 2005*

Hav Birender Singh (No. 14362461F now JC-269009K),
02 Jan 2006/01 Nov 2005*

Hav Vinod Kumar Puthalath (No. 8030863N now JC-
269010Y), 20 Feb 2006/19 Nov 2005*

Hav Yatendra Kumar (No. 14481972P now JC-269011F),
10 Mar 2006/30 Nov 2005*

RHM Ingwale Ravindra Yashwant (No. 14365365X now
JC-269012K), 25 Mar 2006/01 Jan 2006*

Hav Satyabir Singh (No. 14474972M now JC-269013M),
08 Feb 2006/01 Jan 2006*

Hav Tilak Raj (No. 14362268P now JC-269014P), 15 Apr
2006/01 Feb 2006*

RHM Mohan Singh (No. 14479232F now JC-269015X),
28 Mar 2006/01 Feb 2006*

BHM Parkash Chand (No. 14476334M now JC-269016A),
08 Apr 2006/01 Feb 2006*

Hav Brij Nandan Singh (No. 14481196A now JC-269017H),
01 Apr 2006/02 Feb 2006*

Hav Murat Singh (No. 14499206F now JC-269018L),
10 Apr 2006/09 Feb 2006*

BHM Mane Prakash Khashaba (No. 14490387W now JC-
269019N), 25 Mar 2006/15 Feb 2006*

BHM Shio Bachan Ram (No. 14362824A now JC-
269020H), 31 Mar 2006/01 Mar 2006*

BHM Nandan PD Singh (No. 14393002K now JC-269021L),
14 May 2006/29 Mar 2006*

BHM Shyam Lal Singh (No. 14489448W now JC-
269022N), 01 Apr 2006

BHM Surjit (No. 14484164H now JC-269023W), 23 May
2006/10 Apr 2006*

Hav Birender Kumar Singh (No. 14477496K now JC-
268958K), 02 Dec 2005/14 Aug 2005*

Hav Virendra Prasad (No. 14375219L now JC-268959M),
10 Dec 2005/01 Oct 2005*

Hav Ram Briksh Yadava (No. 14481402Y now JC-268960F),
11 Feb 2006/10 Nov 2005*

Hav Sube Singh (No. 14361619M now JC-268961K),
11 Feb 2006/11 Dec 2005*

BHM Bharat Singh (No. 14474412A now JC-268962M),
19 Mar 2006/28 Jan 2006*

BHM Gaikwad Rajaram Shivaji (No. 14360763P now JC-
268963P), 19 Mar 2006/01 Feb 2006*

BHM Dilip Oza (No. 14369356N now JC-268964X), 23 Mar
2006/01 Feb 2006*

Hav Kapchan Singh (No. 14367576Y now JC-268965A),
29 Apr 2006/01 Feb 2006*

RHM Yodesh Kumar (No. 14477908A now JC-268966H),
04 Apr 2006/01 Feb 2006*

BHM Paramanand (No. 14477955X now JC-268967L),
22 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav Galave Subhash Shankar (No. 15109233K now JC-
268968N), 19 Mar 2006/01 Feb 2006*

RHM Gurdev Singh (No. 14482248X now JC-268969W),
31 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav Mosafir Prasad (No. 14480947K now JC-268970L),
26 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav Amarjit Singh (No. 14486577L now JC-268971N),
03 Apr 2006/20 Feb 2006*

Hav Prem Singh (No. 14482250P now JC-268972N), 20 Mar 2006/01 Mar 2006*

Hav B Suralinathan (No. 14378410X now JC-268973Y), 03 May 2006/15 Mar 2006*

RHM Sri Samarjeet Singh (No. 14409612H now JC-268983H), 24 Jan 2006/31 Dec 2005*

RHM Parampal Singh (No. 15110738M now JC-268984L), 21 Jan 2006/31 Dec 2005*

RHM Partap Singh (No. 14396711K now JC-268985N), 23 Jan 2006/31 Dec 2005*

RHM Mukesh (No. 15116401A now JC-268986W), 20 Feb 2006/31 Dec 2005*

Hav Karan Singh (No. 14480164L now JC-268987Y), 13 Apr 2006/15 Feb 2006*

Hav S Ramakrishnan (No. 14488239M now JC-268988F), 05 May 2006/15 Feb 2006*

Hav Durga Prasad (No. 15104112Y now JC-268989K), 27 Mar 2006/15 Feb 2006*

Hav Prem Kumar Singh (No. 15111476N now JC-268990F), 10 Apr 2006/01 Mar 2006*

RHM Mahendra Pal Singh (No. 14483949A now JC-268991F), 10 Apr 2006/01 Apr 2006*

BHM Arun Kumar Shukla (No. 14358431M now JC-268910W), 09 Feb 2006/01 Oct 2005*

Hav M Kadarkarai (No. 14393124N now JC-268911Y), 01 Apr 2006/01 Nov 2005*

Hav Balkishan Yadav (No. 14395058P now JC-268912F), 07 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav Kishan Singh (No. 14488691F now JC-268913 Dec), 29 Jan 2006/31 Dec 2005*

RHM Maruti Malagi (No. 14376191H now JC-268914M), 12 Feb 2006/01 Jan 2006*

Hav Karnleshwar Prasad (No. 14369452N now JC-268915P), 29 Jan 2006/01 Jan 2006*

BHM Rabindra Ram (No. 14363859H now JC-268916X), 23 Mar 2006/01 Feb 2006*

RHM Kamal Singh (No. 14368941F now JC-268917A), 19 Feb 2006/01 Feb 2006*

Hav Rajesh Prasad Shukla (No. 14486649K now JC-268918H), 18 Apr 2006/01 Feb 2006*

Hav Rachhpal Chand (No. 14478587A now JC-268919L), 16 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav Dalip Chand (No. 1448587W now JC-268920A), 01 Apr 2006/01 Feb 2006*

BHM Manik Yashavant Yadav (No. 14363353K now JC-268921H), 01 Feb 2006

RHM Harjit Singh (No. 14362814N now JC-268922L), 10 Feb 2006/01 Feb 2006*

Hav Sabu Thomas (No. 14378214X now JC-268923N), 13 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav Soman A (No. 14378510H now JC-268924W), 13 Mar 2006/07 Feb 2006*

BHM Chinna Samy (No. 14379954Y now JC-268925Y), 13 Mar 2006/16 Feb 2006*

*(Gtd seniority wef)

To be Naib Subedar (Clerk GD)

Hav/Clk Hiran Singh (No. 14362170F now JC-268769A), 20 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav/Clk Pitamber Rajkhwa (No. 14480351K now JC-268712L), 13 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav/Clk Prem Nath Singh (No. 14480236K now JC-268770P), 28 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav/Clk Satya Prakash Sharma (No. 14483601L now JC-268840H), 25 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav/Clk Ram Pujan Singh (No. 14482353N now JC-268771X), 01 Feb 2006/01 Jan 2006*

Hav/Clk Arjun Singh Rana (No. 14359761X now JC-268841L), 30 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav/Clk Min Raj Sharma (No. 14362513M now JC-268926F), 13 Feb 2006/01 Jan 2006*

Hav/Clk Arvind Dutt (No. 14371232X now JC-268713N), 13 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav/Clk Rejashwar Singh (No. 14484630M now JC-268772A), 20 Jan 2006/01 July 2006*

Hav/Clk Dharm Vir (No. 14372144N now JC-268773H), 22 Jan 2006/01 Aug 2006*

Hav/Clk Ramanuj Tiwari (No. 14372213Y now JC-268774L), 20 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav/Clk Karan Singh (No. 14372227Y now JC-268775N), 13 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav/Clk Sultan Singh (No. 14484924A now JC-268776W), 26 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav/Clk Ishwar Singh (No. 14372361K now JC-268777Y), 20 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav/Clk HP Tiwari (No. 144 85073L now JC-268778F), 20 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav/Clk Janak Raj (No. 14372507M now JC-268779K), 16 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav/Clk Ashok Kumar (No. 14372508P now JC-268927K), 25 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav/Clk Satyavir Singh (No. 14372525P now JC-268842P), 20 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav/Clk Dhan Singh (No. 14485286Y now JC-268780Y),
17 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav/Clk Hem Singh (No. 14485295A now JC-268843W),
25 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav/Clk Satyendra Kumar (No. 14485319Y now JC-
268714W), 13 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav/Clk Samunder Singh (No. 14485320N now JC-
268781F), 14 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav (Clk) Bhagirath (No. 14372587P now JC-268929P),
25 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav (Clk) Roshan Lal (No. 143/2588X now JC-268782K),
01 Feb 2006/01 Jan 2006*

Hav (Clk) Chhote Lal (No. 14372617F now JC-268783M),
23 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav (Clk) Balwan Singh (No. 14372678Y now JC-268844Y),
29 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav (Clk) Prem Pal (No. 14373396M now JC-268845F),
20 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav (Clk) Suresh Prasad Shukla (No. 14373547A now JC-
268784M), 21 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav (Clk) Rabinder Kumar Singh (No. 14486107A now JC-
268715Y), 13 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav (Clk) Hari Singh (No. 14486156H now JC-268716F),
13 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav (Clk) Anarul Hoque Mondal (No. 14486287M now JC-
268785X), 31 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav (Clk) Chhota Singh (No. 14486379A now JC-268846K),
19 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav (Clk) Upendra Sharma (No. 14486334A now JC-
268786A), 27 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav (Clk) Balwinder Kumar (No. 14374624W now JC-
268787H), 01 Feb 2006/01 Jan 2006*

Hav (Clk) Indra Shekhar Rai (No. 14493887Y now JC-
268788L), 24 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav (Clk) Utpal Guha Thakurta (No. 8031188Y now JC-
268930K), 20 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav (Clk) Narendra Kumar Maharana (No. 15103637W
now JC-268789N), 01 Feb 2006

Hav (Clk) Mukesh Babu (No. 14392862L now JC-268847M),
01 Feb 2006

Hav (Clk) Dilip Singh Sisodiya (No. 15109257N now JC-
268848P), 01 Feb 2006

Hav (Clk) Chhote Lal (No. 14372085M now JC-268790H),
01 Feb 2006

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay
& allowances)

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

No. dated .—The President is pleased to
make the following promotions :-

To be Substantive Naib Risaldar (Ash)

Dfr S. G. Roy (No. 6476426N now JC-680882P), 12 Mar 2006/
10 Dec 2005*

Dfr Narayan Singh (No. 6472541W now JC-680883X),
16 Mar 2006/10 Dec 2005*

Dfr P. K. Nath (No. 6472513K now JC-680884A), 17 Feb
2006/10 Dec 2005*

Dfr Ram Swaroop Singh (No. 6472535H now JC-680885H),
13 Dec 2005/10 Dec 2005*

Dfr P. K. Yadav (No. 6472552H now JC-680886L), 14 Mar
2006/10 Dec 2005*

Dfr V. S. Ram (No. 6472544X now JC-680887N), 21 Mar
2006/10 Dec 2005*

Dfr Mahesh Lohra (No. 6471674A now JC-680888W),
16 Mar 2006/10 Dec 2005*

Dfr C. Krishnan (No. 6472545M now JC-680889Y), 16 Mar
2006/10 Dec 2005*

Dfr Om Prakash (No. 6472550K now JC-680890N), 29 Mar
2006/10 Dec 2005*

Dfr Sadat Hussan (No. 6472565A now JC-680891W),
18 Mar 2006/10 Dec 2005*

Dfr D. B. Thapa (No. 6472570L now JC-680892Y), 17 May
2006/10 Dec 2005*

Dfr Amar Pal (No. 6471947X now JC-680893F), 17 Mar 2006/
10 Dec 2005*

Dfr Mahinder Singh (No. 6472629A now JC-680896P),
21 Mar 2006/01 Jan 2006*

Dfr R. B. Rai (No. 6472688M now JC-680898A), 20 Mar
2006/01 Jan 2006*

Dfr Ram Niwas (No. 6472695H now JC-680899H), 01 Jan
2006

Dfr Maggar Singh (No. 3382274W now JC-680901P),
20 Mar 2006/01 Jan 2006*

Dfr Satwant Singh (No. 3382285H now JC-680902X),
11 Mar 2006/01 Jan 2006*

Dfr J. N. Singh (No. 6072767P now JC-680903A), 13 Mar
2006/01 Jan 2006*

Dfr Sumer Singh (No. 6472802X now JC-680905L), 16 Mar
2006/01 Jan 2006*

Dfr Shish Ram (No. 6472855Y now JC-680906N), 18 Mar
2006/01 Jan 2006*

Dfr S. N. Choudhary (No. 6472858L now JC-680907W),
25 Mar 2006/01 Jan 2006*

Dfr Raj Pal (No. 6472863W now JC-680908Y), 01 Jan 2006
Dfr Babu Singh (No. 6471799X now JC-680909F), 16 Mar 2006/01 Jan 2006*

Dfr Bijender Pal (No. 6471959M now JC-680910W), 01 Jan 2006

Dfr Mahesh Kumar (No. 6472067N now JC-680913K), 11 Mar 2006/21 Jan 2006*

Dfr Sri Ram (No. 6472177H now JC-680914M), 15 Mar 2006/21 Jan 2006*

Dfr Banwari Lal (No. 6472137F now JC-680915P), 31 Mar 2006/01 Feb 2006*

Dfr Tarun Roy (No. 6472709X now JC-680916X), 01 Feb 2006

Dfr Ram Niwas (No. 6472881Y now JC-680918H), 13 Mar 2006/01 Feb 2006*

To be Substantive Naib Risaldar (AT)

Dfr Yow Raj (No. 6482312Y now JC-680919L), 01 Feb 2006

To be Substantive Naib Subedar (SHGD)

Dfr Surendran K (No. 6376722K now JC-680920A), 13 Mar 2006/21 Jan 2006*

Dfr Bimal Sinha (No. 6376621W now JC-680922L), 31 Mar 2006/21 Jan 2006*

Dfr Niranjana Singh (No. 6377913L now JC-680923N), 30 Mar 2006/21 Jan 2006*

To be Substantive Naib Risaldar (Ash)

Dfr Raouf Ali (No. 6472200L now JC-680838L), 18 Jan 2006/01 Oct 2005*

Dfr Ghowar Ram (No. 13889670P now JC-680839N), 18 Jan 2006/01 Oct 2005*

Dfr Kumar Pal (No. 6472118W now JC-680840H), 01 Oct 2005

Dfr N K Choudhary (No. 6472121W now JC-680841L), 10 Jan 2006/01 Oct 2005*

Dfr Sanjay Prasad (No. 6482084F now JC-680843W), 16 Jan 2006/29 Oct 2005*

Dfr Shibu K (No. 6489623P now JC-680844Y), 14 Jan 2006/29 Oct 2005*

Dfr Arun Kumar Roy (No. 6471868H now JC-680846K), 14 Jan 2006/29 Oct 2005*

Dfr Ningappa Patil (No. 6471867A now JC-680879P), 18 Jan 2006/01 Dec 2005*

Dfr Rama Kant (No. 6472185F now JC-680854H), 10 Jan 2006/01 Nov 2005*

Dfr Birender Singh (No. 6472170Y now JC-680855L), 10 Jan 2006/01 Nov 2005*

Dfr Mahendra Singh (No. 3380974M now JC-680856N), 07 Jan 2006/01 Nov 2005*

Dfr Sita Ram Pandey (No. 6472045P now JC-680857W), 14 Jan 2006/01 Nov 2005*

Dfr Diwan Singh (No. 6472211X now JC-680859F), 17 Jan 2006/01 Nov 2005*

Dfr Ghurahu Ram (No. 6472289H now JC-680860W), 17 Jan 2006/01 Nov 2005*

Dfr MD Sattar (No. 4261793M now JC-680862F), 18 Jan 2006/01 Dec 2005*

Dfr Komal Singh (No. 6471939Y now JC-680863K), 20 Jan 2006/01 Dec 2005*

Dfr Shree Kesh (No. 6472214L now JC-680864M), 18 Jan 2006/01 Dec 2005*

Dfr Ajit Bura Gohain (No. 6472326L now JC-680868H), 17 Jan 2006/01 Dec 2005*

Dfr M A Khan (No. 6472346Y now JC-680869L), 17 Jan 2006/01 Dec 2005*

Dfr Vrijvish Chander (No. 6375477A now JC-680870A), 24 Dec 2005/01 Dec 2005*

Dfr J R Saikia (No. 6375554K now JC-680871H), 31 Dec 2005/01 Dec 2005*

Dfr Naresh Prasad (No. 6376656M now JC-680873N), 18 Jan 2006/01 Dec 2005*

Dfr Nihal Singh (No. 6376672K now JC-680874W), 11 Dec 2005/01 Dec 2005*

Dfr Jawahar Yadav (No. 6376714 now JC-680875Y), 25 Jan 2006/01 Dec 2005*

Dfr Ram Niwas (No. 6472490 now JC-680880K), 10 Jan 2006/01 Dec 2005*

Dfr Raj Kumar (No. 6472389N now JC-680876F), 03 Feb 2006/01 Dec 2005*

Dfr Shiv Pal Jaiswal (No. 6376650L now JC-680872L), 02 Feb 2006/01 Dec 2005*

Dfr Man Math Roy (No. 6472306X now JC-680866X), 01 Feb 2006/01 Dec 2005*

To be Substantive Naib Subedar (SHGD)

Dfr V K Singh (No. 13882046N now JC-680832K), 12 Jan 2006/01 Oct 2005*

Dfr Ramji Prasad (No. 6375552Y now JC-680833M), 12 Jan 2006/01 Oct 2005*

Dfr K B Thapa (No. 6376547A now JC-680834P), 10 Jan 2006/01 Oct 2005*

Dfr Thampi S (No. 6376727H now JC-680835X), 16 Jan 2006/01 Oct 2005*

Dfr Pati Ram Singh (No. 6376748Y now JC-680836A), 17 Jan 2006/01 Oct 2005*

Dfr M K Choudhary (No. 6376907L now JC-680837H),
01 Oct 2005

Dfr S K Singh (No. 6376953A now JC-680848P), 10 Jan
2006/01 Nov 2005*

Dfr Satya Narayan (No. 6376971H now JC-680849X), 18 Jan
2006/01 Nov 2005*

Dfr Udai Ram (No. 6377005H now JC-680850M), 09 Jan
2006/01 Dec 2005*

Dfr B B Rout (No. 6377261K now JC-680853A), 10 Jan 2006/
01 Nov 2005*

To be Substantive Naib Risaldar (Ash/AT)

Dfr Anand Kumar Tiwari (No. 6476868M now JC-680809W),
11 Nov 2005/28 May 2005*

Dfr Bhawani Din (No. 6471766M now JC-680810L), 07 Nov
2005/ 25 Jun 2005*

Dfr Bisharjan Thakur (No. 6471875Y now JC-680812W),
09 Nov 2005/25 Jun 2005*

Dfr B C Gogai (No. 6471999N now JC-680821X), 17 Nov
2005/01 Aug 2005*

Dfr S N Singh (No. 6471985N now JC-680825N), 09 Nov
2005/01 Aug 2005*

Dfr Mukta Ram Kaipeng (No. 6472022N now JC-680829K),
09 Dec 2005/01 Aug 2005*

Dfr Ashok Kumar Jogi (No. 6485387F now JC-680830Y),
08 Nov 2005/20 Aug 2005*

Dfr Marsel Heranj (No. 6471667K now JC-680831F), 12 Nov
2005/20 Aug 2005*

To be Substantive Naib Risaldar (Ash)

Dfr Dharam Singh (No. 6472153Y now JC-680842N), 07 Feb
2006/01 Oct 2005*

Dfr Adesh Kumar (No. 6471782K now JC-680845F), 01 Feb
2006/29 Oct 2005*

Dfr Ram Gati Singh (No. 6471833M now JC-680861Y),
07 Feb 2006/01 Nov 2005*

Dfr Om Prakash Ram (No. 6472297F now JC-680865P),
06 Feb 2006/01 Dec 2005*

Dfr Kamlesh Sahani (No. 6472307A now JC-680867A),
02 Feb 2006/01 Dec 2005*

Dfr Lal Singh Yadav (No. 6483291A now JC-680881M),
06 Feb 2006/01 Dec 2005*

Dfr Raju K K (No. 6472609M now JC-680894K), 18 Mar
2006/10 Dec 2005*

Dfr Chintamani Pati (No. 6472349M now JC-680895M),
13 Apr 2006/10 Dec 2005*

Dfr Ganga Ram Hans (No. 6472680A now JC-680897X),
26 Apr 2006/01 Jan 2005*

Dfr Rajender Prasad (No. 6472659Y now JC-680900M),
01 Apr 2006/01 Jan 2006*

Dfr Parsu Ram Yadav (No. 6472768K now JC-680904H),
15 Mar 2006/01 Jan 2006*

Dfr Kali Das Toppo (No. 6471975K now JC-680912F),
27 Apr 2006/21 Jan 2006*

Dfr Brijnandan Rai (No. 6472596A now JC-680917A),
19 Apr 2006/01 Feb 2006*

Dfr Pravakar Patra (No. 6471758M now JC-680911Y),
14 Mar 2006/21 Jan 2006*

To be Substantive Naib Subedar (SHGD)

Dfr Ahmed Ali (No. 6377506H now JC-680921H), 02 May
2006/21 Jan 2006*

*Gtd ante date seniority without effect on pay and
allowances wef.

S. P. SHARMA
Under Secy.

No. 452, dated 22 August 2006.—The President is pleased to
make the following promotions :-

REGULAR ARMY

Permanent Commission

LT Col To Be Substantive Col (By Sel)

Pers No. Name Arm Subs Date

(IC-37380), T. R. Devgan, Arty, 01 Oct 2005

(IC-38313), Raghbir Singh, Inf, 01 Oct 2005

(IC-37647), Kulwant Singh, Inf, 01 Oct 2005

(IC-37925), P. Prem Kumar, EME, 01 Oct 2005

(IC-38667), P. N. Chaudhari, Arty, 01 Oct 2005

(IC-38673), Manjeet Mehta, Inf, 01 Oct 2005

(IC-38834), Kuldeep Yadav, Inf, 01 Oct 2005

(IC-37723), Rakesh Walia, AOC, 01 Oct 2005

(IC-39067), S. K. Ahuja, Inf, 01 Oct 2005

(IC-39068), Kiranjit Singh, AC, 01 Oct 2005

(IC-39088), Sanjeev Sood, Inf, 01 Oct 2005

(IC-39154), S. Dutta, Mech, 01 Oct 2005

(IC-39270), Navin Kumar, Arty, 01 Oct 2005

(IC-39334), S. N. Sharma, Arty, 01 Oct 2005

(IC-39415), N. P. Reddy, AEC, 01 Oct 2005

(IC-37736), Lalit Pande, Mech, 01 Oct 2005

(IC-37738), P. K. Sharma, JAG, 01 Oct 2005

(IC-37739), S. S. Yadav, JAG, 01 Oct 2005

- (IC-37740), A Passi, Arty, 01 Oct 2005
(IC-37742), Balwan Singh, Inf, 01 Oct 2005
(IC-37743), S. S. Yadav, AC, 01 Oct 2005
(IC-37745), Arvind Thakur, AC, 01 Oct 2005
(IC-37746), Mahavir S. Gaur, ASC, 01 Oct 2005
(IC-37751), D. C Mahajan, AOC, 01 Oct 2005
(IC-37755), A. Dennis, Inf, 01 Oct 2005
(IC-37756), G. S. Chugh, Arty, 01 Oct 2005
(IC-37759), A. Narain, Inf, 01 Oct 2005
(IC-37762), Tejinder Singh, Inf, 01 Oct 2005
(IC-37769), V. G. Ramakrishnan, Sigs, 01 Oct 2005
(IC-37782), Rajeev Gupta, AAD, 01 Oct 2005
(IC-37789), G. P. S. Sawhney, Inf, 01 Oct 2005
(IC-37790), R. Nagpaul, AOC, 01 Oct 2005
(IC-37793), N. Khanna, JAG, 01 Oct 2005
(IC-39433), K. P. Bhat, Sigs, 01 Oct 2005
(IC-39434), M. S. Kohli, AC, 01 Oct 2005
(IC-39435), Sanjiv Bajaj, Engrs, 01 Oct 2005
(IC-39436), S. K. Saini, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39437), S. T. Upasaini, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39438), P. C. Thimmaya, Mech, 01 Oct 2005
(IC-39439), V. George, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39440), S. S. Bais, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39441), Rajbir Singh, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39443), M. S. Khara, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39444), C. K. Sood, EME, 01 Oct 2005
(IC-39445), S. S. Hasabnis, Engrs, 01 Oct 2005
(IC-39450), Amritpal Singh, AC, 01 Oct 2005
(IC-39454), S.K. Thapa, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39455), G. P. Singh, ASC, 01 Oct 2005
(IC-39457), M. S. Ghura, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39458), A. P. Dere, AC, 01 Oct 2005
(IC-39461), A. P. S. Rawat, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39464), M. H. Thakur, ASC, 01 Oct 2005
(IC-39465), A. S. Bedi, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39466), K. B. Mall, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39468), H. S. Bhagat, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39470), M. M. Gupta, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39471), R. A. Venkataraman, Guards, 01 Oct 2005
(IC-39472), J. K. Marwal, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39476), Ravi Bedi, AC, 01 Oct 2005
(IC-39478), Sunil Kapila, Sigs, 01 Oct 2005
(IC-39481), S. R. Choudhary, AOC, 01 Oct 2005
(IC-39482), P. S. Rathore, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39484), Harcharan Singh, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39485), S. S. Yadav, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39486), Shishupal Singh, Int, 01 Oct 2005
(IC-39488), Arun Kumar, Engrs, 01 Oct 2005
(IC-39489), Harbhopinder Singh, ASC, 01 Oct 2005
(IC-39490), V. S. Shekhawat, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39491), A. K. Das, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39492), A. Chauhan, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39496), Satya Pal, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39499), M. Ramachandran, Sigs, 01 Oct 2005
(IC-39500), C. E. Fernandes, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39501), A. P. Singh, AAD, 01 Oct 2005
(IC-39504), S. S. Kale, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39506), S. B. Sajjan, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39510), Sudhir Lamba, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39512), Neeraj Verma, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39517), G. Karunakaran, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39518), Ravi Prasad, AC, 01 Oct 2005
(IC-39521), Y. T. Jain, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39522), J. S. Negi, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39523), A. K. Raghava, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39525), Sanjay Kumar, AAD, 01 Oct 2005
(IC-39537), N. C. Mehta, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39545), J. K. Dang, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39546), Harvijay Singh, Sigs, 01 Oct 2005
(IC-39548), S. S. Deora, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39550), Nutan Prabhat, Sigs, 01 Oct 2005
(IC-39555), K. Jagannathan, AAD, 01 Oct 2005
(IC-39556), K. J. Singh, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39557), Purshottam Singh, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39560), V. S. Verma, Mech, 01 Oct 2005
(IC-39562), S. P. Ahlawat, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39565), Vinod Pant, Sigs, 01 Oct 2005
(IC-39566), G. S. Mangat, Engrs, 01 Oct 2005

- (IC-39569), P. R. S. Chaudhary, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39570), R. N. Pande, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39572), Rajiv Jetley, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39577), Hariharan Ravi, Sigs, 01 Oct 2005
(IC-39579), Rajiv Chopra, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39581), Balraj Singh, Engrs, 01 Oct 2005
(IC-39583), J. N. Nayar, EME, 01 Oct 2005
(IC-39590), H. Thukral, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39591), Sunil Kumar, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39594), J. R. Chandra, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39596), P. S. Narwal, Engrs, 01 Oct 2005
(IC-39598), G. Jaishankar, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39600), S. C. W. Ghatpande, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39603), J. S. Pathania, AOC, 01 Oct 2005
(IC-39604), A. Asthana, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39605), S. S. Chhillar, Arty, 01 Oct 2005
(IC-09606), Rajiv Chib, AC, 01 Oct 2005
(IC-39607), I. S. Ghuman, Guards, 01 Oct 2005
(IC-39608), N. K. Bhatia, INT, 01 Oct 2005
(IC-39609), A. Ohri, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39616), R. K. Gupta, AAD, 01 Oct 2005
(IC-39617), P. S. Sanwal, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39621), R. K. Bhardwaj, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39625), Ashwani Gulati, EME, 01 Oct 2005
(IC-39636), S. S. Ruhil, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39637), C. P. Singh, AOC, 01 Oct 2005
(IC-39642), M. G. Nair, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39643), Rajiv Edwards, AC, 01 Oct 2005
(IC-39646), N. Sanal Kumar, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39647), D. Bakshi, Guards, 01 Oct 2005
(IC-39650), R. Ghai, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39653), Deepak Arora, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39655), H. Joneja, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39656), D. Sharma, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39661), S. P. Kulkarni, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39665), Karunakaran P, Int, 01 Oct 2005
(IC-39666), H. C. Pathak, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39669), H. P. S. Pall, Mech, 01 Oct 2005
(IC-39673), J. S. Yadav, AC, 01 Oct 2005
(IC-39675), Vijay Singh, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39676), D. V. S. Rana, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39678), B. Shome, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39682), S. K. Singh, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39693), Rakesh Hura, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39696), J. T. Chacko, AOC, 01 Oct 2005
(IC-39698), Rajiv Nath Singh, Mech, 01 Oct 2005
(IC-39700), A. Hussain, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39709), S. S. Saluja, AOC, 01 Oct 2005
(IC-39739), R. Srivastva, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39747), G. Pathak, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39751), Harpal Singh, AC, 01 Oct 2005
(IC-39756), N. P. Singh, AOC, 01 Oct 2005
(IC-39769), D. V. Raja, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39775), S. Srinivasan, EME, 01 Oct 2005
(IC-39780), K. K. Pant, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39800), Shrish Kamboj, AEC, 01 Oct 2005
(IC-39807), B. A. Kumar, AEC, 01 Oct 2005
(IC-39820), M. K. Bhardwaj, EME, 01 Oct 2005
(IC-39823), B. S. Rathore, AEC, 01 Oct 2005
(IC-39832), G. K. Chopra, AEC, 01 Oct 2005
(IC-39860), K. Mukherjee, AEC, 01 Oct 2005
(IC-41437), R. S. Sharma, Engrs, 01 Oct 2005
(IC-41439), M. S. Wadhwa, EME, 01 Oct 2005
(IC-41442), T. S. Negi, Sigs, 01 Oct 2005
(IC-41444), A. K. Biswas, Engrs, 01 Oct 2005
(IC-41445), Bhupinder Singh, Engrs, 01 Oct 2005
(IC-41456), R. K. Anand, Sigs, 01 Oct 2005
(IC-39573), R. Kumar, AOC, 01 Oct 2005
(IC-37807), Atma Sharan, AC, 01 Oct 2005
(IC-37811), S. T. Reddy, Arty, 01 Oct 2005
(IC-37813), Vinod Kumar, Inf, 01 Oct 2005
(IC-37814), Pramod Singh, AOC, 01 Oct 2005
(IC-37816), R. P. S. Rai, AOC, 01 Oct 2005
(IC-37828), Shriom Singh, Inf, 01 Oct 2005
(IC-37830), Rajesh Singh, Inf, 01 Oct 2005
(IC-37833), P. Kumar, Inf, 01 Oct 2005
(IC-37836), N. K. Mohan, Arty, 01 Oct 2005
(IC-37838), N. Kumar, AOC, 01 Oct 2005

- (IC-37840), R. Gangele, Arty, 01 Oct 2005
(IC-37851), S. S. Pathania, Inf, 01 Oct 2005
(IC-37853), K. V. P. S. Hundal, ASC, 01 Oct 2005
(IC-37855), T. Parshad, JAG, 01 Oct 2005
(IC-37856), N. K. Kohli, JAG, 01 Oct 2005
(IC-37857), A. Harkauli, JAG, 01 Oct 2005
(IC-39864), V. D. Dogra, AC 01 Oct 2005
(IC-39865), Michael Mathews, Engrs, 01 Oct 2005
(IC-39867), A. Srivastava, Mech, 01 Oct 2005
(IC-39868) S Srivastava, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39869) AK Ahuja, Mech, 01 Oct 2005
(IC-39870) SK Mathur, EME, 01 Oct 2005
(IC-39871) SK Upadhya, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39872) Anil Kapoor, EME, 01 Oct 2005
(IC-39874) Taranjit Singh, AC, 01 Oct 2005
(IC-39875) GS Bains, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39876) SDS Hayer, AC, 01 Oct 2005
(IC-39879) AK Dhar, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39881) Toll Ram Somatia, AOC, 01 Oct 2005
(IC-39885) HK Kalra, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39888) Ashwini Sharma, EME, 01 Oct 2005
(IC-39894) Kanwal Jit Singh, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39897) BB Vats, Guards, 01 Oct 2005
(IC-39898) DS Ahuja, Engrs, 01 Oct 2005
(IC-39904) NN Singh, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39909) PS Sandhu, Mech, 01 Oct 2005
(IC-39910) C Ramachandran, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39911) Anil Sofat, AAD, 01 Oct 2005
(IC-39915) A Bhardwaj, AC, 01 Oct 2005
(IC-39919) AK Sharma, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39920) P Kotnala, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39921) KS Shaji, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39922) P Saxena, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39924) Gurcharan Singh, Guards, 01 Oct 2005
(IC-39927) Pradeep Katoch, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39929) Saranjeet Singh, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39930) VPS Bhakuni, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39940) Jagatbir Singh, AC, 01 Oct 2005
(IC-39943) Ajay Wadhwa, Engrs, 01 Oct 2005
(IC-39956) GS Sangha, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39959) KJ Singh, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39966) VS Randhawa, EME, 01 Oct 2005
(IC-39967) Pankaj Mehrotra, AAD, 01 Oct 2005
(IC-39968) CK Ramesh, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39970) S Apte, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39971) Chamkaur Singh, ASC, 01 Oct 2005
(IC-39972) A Mathur, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39975) KV Kuber, Sigs, 01 Oct 2005
(IC-39977) NS Rao, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39980) DS Kler, Mech, 01 Oct 2005
(IC-39985) RS Gill, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39988) MK Yadav, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39990) A Sindhvani, AAD, 01 Oct 2005
(IC-39992) Anoop Kumar V, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39993) P Verghese, Inf, 01 Oct 2005
(IC-39995) SS Marnak, Arty, 01 Oct 2005
(IC-39996) R Sabherwal, Sigs, 01 Oct 2005
(IC-39998) VK Jaswal, Inf, 01 Oct 2005
(IC-40001) HC Rai, Inf, 01 Oct 2005
(IC-40003) S Handa, A/AVN, 01 Oct 2005
(IC-40004) PS Sandhu, Inf, 01 Oct 2005
(IC-40005) JK Bansal, Sigs, 01 Oct 2005
(IC-40007) YVK Mohan, Inf, 01 Oct 2005
(IC-40008) SB Singh, Arty, 01 Oct 2005
(IC-40009) SP Mahule, AAD, 01 Oct 2005
(IC-40010) RV Athavale, AC, 01 Oct 2005
(IC-40012) Amardeep Singh, ASC, 01 Oct 2005
(IC-40013) AK Thakur, Arty, 01 Oct 2005
(IC-40014) Ajay Singh, AC, 01 Oct 2005
(IC-40019) AK Sharma, AAD, 01 Oct 2005
(IC-40025) Giri Raj Singh, AOC, 01 Oct 2005
(IC-40028) SPS Kohli, Engrs, 01 Oct 2005
(IC-40030) KS Selvan, Inf, 01 Oct 2005
(IC-40031) Sanjeev Kanal, Arty, 01 Oct 2005
(IC-40032) AS Chandhoke, Inf, 01 Oct 2005
(IC-40033) S Sabharwal, Arty, 01 Oct 2005
(IC-40039) AK Manrai, AOC, 01 Oct 2005
(IC-40040) M Khare, Arty, 01 Oct 2005
(IC-40046) Tara Chand, Inf, 01 Oct 2005

(IC-40060) GJ Singh, Arty, 01 Oct 2005
 (IC-40064) VC Chitre, Arty, 01 Oct 2005
 (IC-40076) AS Oberoi, Mech, 01 Oct 2005
 (IC-40078) AS Sidhu, A/AVN, 01 Oct 2005
 (IC-40082) AS Ghuman, Inf, 01 Oct 2005
 (IC-40083) B Ramachandran, Arty, 01 Oct 2005
 (IC-40088) AS Parmar, Arty, 01 Oct 2005
 (IC-40090) Vijay Kumar, AC, 01 Oct 2005
 (IC-40092) SS Kumar, Engrs, 01 Oct 2005
 (IC-40094) Mandeep Singh, Arty, 01 Oct 2005
 (IC-40096) MM Hussain, Arty, 01 Oct 2005
 (IC-40097) Rajan Kochhar, AOC, 01 Oct 2005
 (IC-40098) Dushyant Singh, Inf, 01 Oct 2005
 (IC-40099) Girish Gogia, Inf, 01 Oct 2005
 (IC-40101) RK Jagga, AC, 01 Oct 2005
 (IC-40102) BS Cheema, Arty, 01 Oct 2005
 (IC-40106) Anil Sharma, Inf, 01 Oct 2005
 (IC-40115) Arvind Sethi, Mech, 01 Oct 2005
 (IC-40120) Kulvinder Singh, Arty, 01 Oct 2005
 (IC-40125) AS Nijjar, Inf, 01 Oct 2005
 (IC-40133) SC Meston, Inf, 01 Oct 2005
 (IC-40136) Amit Sharma, Inf, 01 Oct 2005
 (IC-40139) Deshbir Singh, Arty, 01 Oct 2005
 (IC-40144) RP Joshi, Inf, 01 Oct 2005
 (IC-40151) Ranjit Singh, Inf, 01 Oct 2005
 (IC-40156) Sandeep Sharma, Sigs, 01 Oct 2005
 (IC-40158) A Kainthla, Inf, 01 Oct 2005
 (IC-40164) MLNS Kumar, Arty, 01 Oct 2005
 (IC-40167) DS Grewal, Inf, 01 Oct 2005
 (IC-40189) DR Kumar, AAD, 01 Oct 2005
 (IC-40198) Prakash Tewari, Inf, 01 Oct 2005
 (IC-40202) SK Singh, Inf, 01 Oct 2005
 (IC-40216) GS Talwar, Arty, 01 Oct 2005
 (IC-40235) R. Gopal, Inf, 01 Oct 2005
 (IC-40238) UC Dadwal, Mech, 01 Oct 2005

(IC-40240) V Nangia, Inf, 01 Oct 2005
 (IC-40244) S Gopalan, Inf, 01 Oct 2005
 (IC-40248) V Puri, Arty, 01 Oct 2005
 (IC-40257) SK Chhabra, ASC, 01 Oct 2005
 (IC-40264) Jaswinder Singh, AEC, 01 Oct 2005
 (IC-39906) A Mehrotra, Arty, 01 Oct 2005
 (IC-41814) Deepak Sharma, Engrs, 01 Oct 2005
 (IC-41817) RG Goswami, EME, 01 Oct 2005
 (IC-41820) RK Joshi, Sigs, 01 Oct 2005
 (IC-41838) SK Singh, Sigs, 01 Oct 2005
 (IC-41839) R Chhibber, Sigs, 01 Oct 2005
 (IC-41844) Dinesh Kumar, Sigs, 01 Oct 2005

AJAY GOEL
 Dy. Dir.
 MS-8A

No. 453, dated 21st August, 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to Lt Col

IC No, Name & Arm

(40749) PS Panesar, Sigs, 16 Dec 2004

SHIV RAM BAIRWA

Dy. Dir.
 MS-8C

No. 454, dated 22nd August, 2006.—The President is pleased to make substantive promotions of Major General to the following officers :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Maj Gen

IC No, Rank, Name, Arm & Date.

(IC23785) Brig, Murthy SK, VSM, Sigs, 16 Mar 05 with seniority from 01 Feb 04 without effect on pay and pension.

N. K. PHUKAN
 Jt. Dir.
 MS(X)

AIR BRANCH

No. 455, dated 22nd August, 2006.—The President is pleased to make the following substantive promotions :—

INDIAN AIR FORCE

ACCTS BRANCH

To be Substantive Air Vice Marshal

IC No, Name & Arm

(13690) RBS KALRA, Accts, 01 Apr 2006

LOGISTIC BRANCH

To be Substantive Air Vice Marshal

IC No, Name & Arm

(13108) JBS BOPARAI, lgs, 02 Jan 2006

KV SHANKAR

Jt. Dir. of Personnel (Officers)-PO2(B)

No. 456, dated 17 August, 2006.—The President is pleased to permit Shri Satpaul Singh, Section Officer, Ministry of Defence to retire from Government Service with effect from 01 Aug 2006 (FN).

The President is pleased to Permit Shri Vinay Kumar Diwan, Private Secretary, Ministry of Defence, to retire voluntarily from Government service with effect from the forenoon of 1st August, 2006.

V. SARASWATHY,
Dy. Secy.

ARMY BRANCH

No. 457, dated 18 August 2006—The President is please to permit the following officers to retire from service on attaining the age of superannuation :—

TERRITORIAL ARMY

RETIREMENT

Col VK Bajpai (TA-41481), Infantry, 31 Jul 2004

Lt Col (Ser) Balbir Singh (TA-41736), Infantry, 31 Oct 2004

Capt Uday Kumar (TA-42110), Infantry, 31 Dec 2004

BK MALHOTRA
Under Secy.

(AIR BRANCH)

No. 458, dated 21 August 2006.—The President is pleased to transfer the undermentioned officer from F(P) to Administrative branch with effect from the date indicated against his name with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in the Admin Branch. The officer will be placed between Sqn Ldr TS Vasudev (25900) Adm and Sqn Ldr RS Kushwaha (26132) Adm in the Air Force List. The officer will not be entitled to Flying Pay with effect from the date of obtaining Permanent Low Non-Flying Medical Category i.e, 27 Feb 06 vide Air HQ/21901/25847/PO-3(E) dated 29 May 2006.

Sqn Ldr R Kumar (25847) F(P) to Adm wef 27 Feb 2006.

P SINGH
Wg. Cdr